

ARBIT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

epaper.rashtrdoot.com



राष्ट्रदूत

Rashtrdoot

Metro

The earlier growers can identify plant diseases or fungal infections, the better able they will be to limit the spread of the disease and preserve their crop.

What Makes Them Win Races!

The 'victor' gave his name to the entire four-year Olympiad. The winner of the stadium at the first Olympic Games was Coroebus of Elis.

Plant Patch

कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ नया फ्रंट खोला, चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में हेराफेरी का

कांग्रेस का आरोप है, लोकसभा चुनाव में भाजपा 79 सीटें मतदान प्रतिशत में हेराफेरी करके जीती है

-रेणु मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 अगस्त कांग्रेस पार्टी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर लोड्डेड मिसाइल दागी है और मतों में हेराफेरी करके फर्जी जीत हासिल करने का आरोप लगाया है।

यह आरोप लगाते हुए कि 2024 आम चुनावों में, कुल मतदान संख्या में हेराफेरी करके भाजपा ने 79 सीटों पर विजय हासिल की है, कांग्रेस ने आज भारतीय चुनाव आयोग से, प्रारंभिक तथा फाइनल मतदान आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।

वोट फॉर डैमोक्रेसी (वी.एफ.डी.) की एक रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, चुनाव आयोग ने शुरु में जो कहा और अंत में जो आंकड़े दिए उसमें समग्र अंतर औसतन 4.7 प्रतिशत है, लेकिन पूरे राष्ट्र में मिलाकर

कांग्रेस के अनुसार, 2019 में मतगणना प्रारंभिक रूप से घोषित मतदान प्रतिशत व फाइनल वोटिंग परसेंटेज में केवल एक प्रतिशत का फर्क था, पर, 2024 में प्रारंभिक मतदान प्रतिशत व फाइनल घोषित मतदान प्रतिशत में औसतन 4.7 प्रतिशत का फर्क था, जो जायज नहीं लगता।

कांग्रेस के अनुसार, ओडीशा व आंध्र, जहाँ भाजपा को मतदान प्रतिशत में अप्रत्याशित सफलता मिली है, वहाँ, प्रारंभिक व फाइनल में, 12.5 प्रतिशत का फर्क है और लक्षद्वीप में तो यह फर्क 25 प्रतिशत है।

कांग्रेस का यह भी कहना है कि मतदान के बाद चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित करने में इतना अधिक समय लगाना भी संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि, आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो मतगणना के समय हर दो घंटे में वोटों की संख्या अपडेट होती है, पर, चुनाव के प्रथम चरण के वोटिंग के आंकड़े देने में चुनाव आयोग को 11 दिन लगे थे।

वे 5 करोड़ वोट होते हैं। वी.एफ.डी. रिपोर्ट का हवाला देते

हुए दीक्षित ने खुलासा किया कि ओडीशा तथा आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य, जहाँ भाजपा व उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा रहा, प्रारंभिक तथा फाइनल मतदान आंकड़ों में अंतर 12.5 प्रतिशत का, जो कि बहुत बड़ा अंतर है तथा चुनाव आयोग को इसका, जवाब देना चाहिए।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि एक प्रतिशत का अंतर तो समझ में आता है, लेकिन 12.5 प्रतिशत का भारी अंतर तथा लक्षद्वीप जैसी जगहों पर 25 प्रतिशत तक का अंतर गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट में विशेष रूप से उन 79 निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम मतदान प्रतिशत, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए प्रारंभिक आंकड़ों से बहुत ज्यादा बढ़ गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

2023 में 2.16 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 अगस्त कांग्रेस ने आज भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार पर भारतीयों द्वारा नागरिकता छोड़े जाने के मुद्दे पर कटाक्ष किया और कहा कि मौजूदा सरकार के तहत जो भय का माहौल बना है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सरकार के अपने आंकड़े जो उसने राज्यसभा में जारी किए हैं, बताते हैं कि वर्ष 2023 में 2.10

राज्यसभा में प्रस्तुत इस सरकारी आंकड़े पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा और कहा कि भय के माहौल व कर प्रणाली के कारण भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं।

लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है जोकि 2016 में 1.23 लाख भारतीयों का दोगुना है।

उन्होंने दावा किया कि जिन भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है वे कुशल एवं उच्च शिक्षित हैं और देश के कुशल श्रम आपूर्ति की कमी के समय इनके देश छोड़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

रमेश ने कहा कि इनमें से कई लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न भी हैं। इस साल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वित्तीय बाज़ार में कमला हैरिस की बढ़ती साख ने ट्रम्प की चिंता बढ़ाई

मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रथ सोशल में ट्रम्प की भागीदारी की वैल्यू 900 मिलियन डॉलर घट गई है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 अगस्त अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में डैमोक्रेटिक पार्टी की नई प्रत्याशी कमला हैरिस को वित्तीय बाजार बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। डॉनल्ड ट्रम्प के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रथ सोशल" की वैल्यू में आयी भारी कमी से इसका संकेत मिल सकता है।

ट्रथ सोशल में ट्रम्प की भारीदारी की मार्केट कैपिटल में 900 मिलियन डॉलर तक की कमी आई है। बाइडन के कमला हैरिस के पक्ष में पोलें हटने से पहले तक ट्रम्प की भागादारी 4 अरब डॉलर तक थी अब यह घटकर 3.1 अरब डॉलर रह गई है।

ऐसा माना जाता है कि अगर ट्रम्प राष्ट्रपति बन गए तो यह मंच उनकी सोशल मीडिया पोस्टिंग का जरिया बन जाएगा और इसी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई थी।

लेकिन कमला हैरिस के डैमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति पद की दौड़ में सामने आने के बाद से ट्रथ सोशल के साथ ट्रम्प के जुड़े

कमला हैरिस ने डैमोक्रेटिक अभियान में और सभी प्रमुख डैमोक्रेटिक नेताओं में जोश भर दिया है। जो पहले हैरिस के खिलाफ थे वे भी उनके पक्ष में आ गए हैं। कुछ श्रेत समूह भी कमला हैरिस को समर्थन दे रहे हैं। हैरिस को इन दिनों बड़ी सफलता मिली जब युनाइटेड ऑटो वर्कर्स, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, ने कमला हैरिस को दावेदारी का समर्थन किया।

अपने अभियान के लिए फंड जुटाने में भी हैरिस काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका में फंड जुटाने को प्रत्याशी की लोकप्रियता और जीत का पैमाना माना जाता है। इस सप्ताह के आरंभ में ट्रम्प ने अश्वेत पत्रकारों से बात करते हुए अपने चुनाव अभियान को लेकर हताशा के संकेत दिए। कई सवालों के जवाब में तो वे काफी गुस्सा हो गए थे।

मौजूदा प्रशासन के बारे में भी ट्रम्प ने अपने ही अंतिम में बोला।

रुस में अमेरिकन बंदियों की बहुप्रतीक्षित रिहाई की सफल वार्ता के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र के चुनाव की गहमा-गहमी चरम पर पहुंची

उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को टारगेट बनाते हुए कहा कि शाह, अहमद शाह अब्दाली के राजनैतिक उत्तराधिकारी हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 अगस्त महाराष्ट्र में होने वाले आगामी चुनावी युद्ध की रेखाएं खिंच गई हैं, शिव सेना (यू.बी.टी.) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अहमद शाह अब्दाली के 'राजनीतिक वंशज' हैं।

शिव सेना (यू.बी.टी.) ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि वह सत्ता में बने रहने के लिए 'राजनैतिक जिहाद' में संलिप्त है तथा इसके लिए वह राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ कर रही है।

पुणे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए ठाकरे ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला और उन्हें "औरंगजेब फैन क्लब" का अध्यक्ष बताया।

ठाकरे ने शाह की आलोचना की और शाह को "अहमद शाह अब्दाली" का 'राजनीतिक उत्तराधिकारी' बताया।

असल में अमित शाह ने कुछ अर्सा पूर्व ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख कहा था, इसके जवाब में ठाकरे ने शाह को अब्दाली का वंशज बताया। अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था जिसने पानीपत के युद्ध में मराठों को हराया था।

पुणे में शिव सेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सत्ता के बने रहने के लिए भाजपा राजनैतिक "जिहाद" कर रही है और विभिन्न दलों को तोड़ रही है।

अब्दाली अफगान शासक था, जिसने मराठों को पानीपत के युद्ध में हराया था। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई 'मुख्यमंत्री माझी लडकी बहिन योजना' को आलोचना करते हुए कहा कि वह मतदाताओं में "रेवडु" बाँटकर उन्हें रिश्वत देने का कार्य कर रही है।

ठाकरे ने कहा "जब हमने मुस्लिमों को हमारे हिन्दुत्व के बारे में बताया तो वे हमारे साथ हो गए, इस पर (भाजपा ने) हमें औरंगजेब फैन क्लब कहा। तो जो आप कर रहे हो, वह सत्ता के लिए जिहाद है।"

21 जुलाई को जब शाह महाराष्ट्र के पुणे में भाजपा के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने महा विकास अघाड़ी गठबंधन को "औरंगजेब फैन क्लब" कह कर उसकी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि ठाकरे इस क्लब के नेता हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स की बढ़ती संख्या के लिए नीति बनाई जाए'

-सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 अगस्त कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि भारत में तेजी से बढ़ते हुए कोचिंग संस्थानों के लिए एक समग्र नीति समाधान लाने की जरूरत है और कहा पाठ्यक्रम की समीक्षा की

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वर्ष 2019 से 2024 के बीच कोचिंग संस्थाओं से होने वाली जी.एस.टी. वसुली 2,241 करोड़ रूपए से बढ़कर 5,517 करोड़ रूपए हो गई है। कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स की बढ़ती संख्या के समाधान की जरूरत है।

जानी चाहिए तथा सभी परीक्षा आयोगों के पास अधिक संसाधनों की आवश्यकता है और शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निवेश की जरूरत है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट के "कोटा में कोटा" देने वाले निर्णय से राजनैतिक वातावरण बहुत गर्माया

कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे आरक्षण के माध्यम से सोशल जस्टिस करने के प्रयास पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 अगस्त सर्वोच्च न्यायालय का वह निर्णय, जिसमें राज्यों को यह अनुमति दे दी गई है कि वे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षित श्रेणियों में "कोटा के अन्दर कोटा" निर्धारित कर सकते हैं, ने एक बवाल खड़ा कर दिया है।

ए.पी.आई. के दो घटक दलों ने इस सम्बन्ध में अपनी चिन्ताएं व्यक्त कर दी हैं। केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिये सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। आ.पी.आई. नेता रामदास अठावले ने भी एस.सी./एस.टी. में क्रीमी लेयर की शर्त को लागू करने की कोशिशों का विरोध किया है। अठावले भी केन्द्रीय मंत्री हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को पसन्द करने वाले लोगों का कहना है कि क्रीमी लेयर को चिन्हित करके उसे

"कोटा में कोटा" देने की शुरुआत सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार ने की थी, जब उन्होंने दलितों में "महादलित" वर्ग चिन्हित किया था।

एन.डी.ए. के दो घटक दलों के नेताओं, चिराग पासवान और रामदास अठावले ने इस फैसले का विरोध किया व सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की बात कही है। चिराग का कहना है कि सदियों से छुआछूत झेल रही जातियों के उत्थान का उद्देश्य इससे पूरा नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करने वाले वर्ग का कहना है कि इससे सामाजिक हकदारों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने की राह में जो भी बाधाएं हैं, सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि क्रीमी लेयर आरक्षण से बाहर हो जाएगी और वास्तविक जरूरतमंद को ही आरक्षण को लाभ मिलेगा।

आरक्षण से बाहर करने के दरवाजे खुल जाने से सामाजिक न्याय की मौजूदा नीतियों को एकदम सटीक बनाने के रास्ते की लम्बे समय से चली आ रही बाधाएँ दूर हो गई हैं। इससे भिन्न एक विचार यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के परिणाम स्वरूप, एस.सी. और एस.टी. श्रेणियों के बीच एक

राजनैतिक लड़ाई जन्म लेगी तथा एस.सी./एस.टी. के नौकरी में गारन्टीड आरक्षण राजनैतिक हितों की समकों पर निर्भर हो जायेगा। एक ताकतवर विचार यह भी है कि इस आदेश के चलते, आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की प्रक्रिया की दिशा में एक शुरुआत हो जायेगी।

प्रसंगवश बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपनाई गई प्रतिक्रियाओं के अनुरूप है। नीतीश कुमार ने "महादलित" श्रेणी को चिन्हित करके, उसे अंतित श्रेणी की तुलना में सकारात्मक कार्यवाही का कहीं ज्यादा पात्र बताया था। किन्तु कुछ पर्यवेक्षकों का विचार है कि इन मुद्दों का सम्बन्ध केवल नौकरी से ही नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद, राज्य सरकारों के लिये यह सम्भव हो सकता है कि वे "सफाई कर्मचारियों" वाली जातियों को क्रीमी लेयर श्रेणी में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

21 साल से कम उम्र और 40 फीसदी से कम अंक वालों की नियुक्ति पर रोक

जयपुर, 3 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है, जिनकी उम्र एक जनवरी, 2024 को 21 साल से कम

राजस्थान हाई कोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के संबंध में दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

थी। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं देने को कहा है, जिनके भर्ती की लिखित परीक्षा में चालीस फीसदी से कम अंक हैं। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में प्रमुख (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पश्चिमी देशों में भारतीय मूल के जाने-माने राजनीतिज्ञ, भारत के लिये खास मददगार साबित नहीं होते!

वे सदा भारी दबाव में रहते हैं, अपने नये "घर" (नये देश) के प्रति अपनी वफादारी साबित करते रहें और इस जिम्मेवारी में दबे हुए वे सबसे पहले अपने पुराने देश (मातृभूमि) के हितों का बलिदान करते रहते हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अगस्त। विदेशों में भारतीय मूल के राजनेताओं के उदय से वहाँ के भारतीय समुदाय के प्रभाव और सफलता का पता चलता है, लेकिन यह भारत को आवश्यक लाभ नहीं पहुंचाता। ये नेता अपने राजनीतिक सिस्टम के भीतर ही काम करते हैं और अपने नए देश के हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। अपनी दोहरी पहचान के कारण इन नेताओं पर कड़ी नजर रहती है, इसलिए ये भारतीय हितों की अपेक्षा अपने गृहीत देश की नीतियों का अधिक अनुसरण करने के बाद अपना रुख तय करते हैं।

कमला हैरिस का अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद तक आरोहण और अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रम्प के खिलाफ

उदाहरण के लिये, आर्टिकल 370 को सर्पेड करने के बाद, जब हिन्दुस्तान ने इन्टरनेट पर प्रतिबंध लगाया था, आतंकवादियों को संगठित होकर वारदातें करने से रोकने के लिये, तब अमेरिका की जानी-मानी भारतीय मूल की कांग्रेस मैन प्रमिला जयपाल ने वहाँ की संसद में प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की भारत के खिलाफ। शायद उनका मकसद अमेरिका के विदेश मंत्रालय को "इम्प्रेस" करना था।

इसी तरह का आचरण निक्की हैली, प्रीत भरारा, बाँबी जिंदल व सुएला ब्रोवरमैन का रहा है। बाँबी जिंदल, पहले भारतीय-अमेरिकी थे, जो अमेरिका में गवर्नर बने, अपनी भारतीय विरासत से दूरी बनाकर, ईसाई धर्म अपनाया, अपनी अमेरिकी पहचान को और मजबूत करने के लिए और इसका उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिला, रिपब्लिकन पार्टी में जल्दी से जल्दी एक के बाद एक उच्च पद व जिम्मेवारी पाने में।

उनका डैमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी बनना एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसका भारतीय और भारतीय अमेरिकन, दोनों जश्न मना रहे हैं। भारतीय मां की पुत्री होने के नाते अमेरिका की राजनीति में उनकी यह उपलब्धि भारतीय

अमेरिकियों के लिए एक मील का पत्थर है। तथापि, डैमोक्रेटिक पार्टी के प्रतियोगी एजेंडे के कारण बनी उनकी राजनीतिक स्थिति प्रायः उद्देश्य संभवतः प्रतियोगी लोगों का समर्थन जुटाना था, ने उन लोगों को आलोचना की सामग्री

हैरिस ने भारत के कृषि कानूनों की आलोचना कर एक कूटनीतिक मुद्दा छेड़ दिया। सोशल मीडिया पर उनकी अलंकारिक भाषा, जिसका उद्देश्य संभवतः प्रतियोगी लोगों का समर्थन जुटाना था, ने उन लोगों को आलोचना की सामग्री

प्रदान कर दी, जो भारत में सुधारों का विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिका की सरकार ने भी उक्त सुधारों का समर्थन किया था। इससे समझ में आता है कि उनके बयान को कमला हैरिस की स्वीकृति थी।

पश्चिमी देशों में भारतीय मूल के राजनेता अपने गृहीत देशों के हितों को नैसर्गिक रूप से प्राथमिकता देते हैं। आज के ध्रुवीकृत वैश्वक राजनीतिक माहौल में, वे अपने नए देशों के प्रति अपनी निष्ठा को साबित करने के लिए प्रायः स्वयं को बाध्य महसूस करते हैं और कभी-कभी तो ऐसा भारत के हितों की कीमत पर होता है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है, अमेरिकी कांग्रेस की प्रमिला जयपाल द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद व्यक्त किए गए विचार। भारत की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मूत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं'

जयपुर, 3 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारियों के निधन के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने के दो अलग-अलग मामलों में प्रमुख शिक्षा

हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने के दो मामलों में प्रमुख शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किये।

सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप गुंडर की एकलपीठ ने यह आदेश जितेंद्र गुर्जर व राहुल गुप्ता की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

धैर्य कड़वा होता है, पर उसका फल मीठा होता है। -रूसो

आयुर्वेदोक्त भोजन से जरा- व्याधि-मुक्त भारत की परिकल्पना साकार हो सकती है

आयुर्वेद में आहार का विज्ञान बहुत विशाल है जो, रसायन और औषधियों के साथ मिलकर, हमें स्वस्थ रखने और रोगों को दूर करने में मदद करता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध से अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि शरीर में प्रो-इंफ्लेमेटरी के बढ़ने से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द, यह दो बातें हैं जो अंततः मानव शरीर के नाश का कारण बनती हैं। अतः यदि इन दोनों को नियंत्रित कर लें तो जरा व्याधि से मुक्ति मिल सकती है। शोध से यह भी सिद्ध हो चुका है कि आयुर्वेद-सम्मत भोजन और रसायन यही दोनों काम-एंटो-ऑक्सीडेंट और एंटीइन्फ्लेमेटोरी कार्य-बेहद प्रभावशाली साबित हो सकते हैं।

वर्ष 2016 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जपानी जीवविज्ञानी योशीनोरी ओहसुमी को जिस शोध के लिये मिला है उससे एक संभावना और उभरी है कि आयुर्वेदोक्त भोजन और रसायन, ऑटोफैगी नामक प्रक्रिया को बढ़ावा देने का कार्य भी करते हैं। ऑटोफैगी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकायें स्वयं को खाकर द्रव्यों का पुनर्चक्रण कर लेती हैं। इस प्रक्रिया के बाधित होने पर पार्किंसन और मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऑटोफैगी एक मौलिक प्रक्रिया है जिसका हमारे स्वास्थ्य एवं बीमारियों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण स्थान है।

महर्षि चरक के अनुसार आयुर्वेद के दो मूल उद्देश्य हैं (च.सं., सू.स्था., 3.0.26): स्वस्थस्व स्वास्थ्यस्वभाव आतुरस्य विकारप्रशमनम्। अर्थात्, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और पीड़ित व्यक्ति के विकार का शमनाचार्य सुश्रुत द्वारा दी गयी स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुरूप उपयुक्त आहार हमारे शरीर के दोष, अग्नि, धातु, और मल-त्याग सन्तुलित हो, इन्द्रिय, आत्मा एवं मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ कहलाता है। आहार से संतुष्टि, तत्क्षण शक्ति, और संबल मिलता है, तथा आयु, तेज, उत्साह, यादशक्ति, ओज, एवं पाचन में वृद्धि होती है। आहार: प्रीणनः सद्योबलकृद्देहाकरः। आयुर्वेदःसमुत्साहस्मृत्योजोऽग्निविवर्द्धनः॥ (सु.सं., चि.स्था. 2.4.68)

यहाँ भोजन से प्राप्त होने वाला ओज जीने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आचार्य चरक ने लिखा है (च.सं., सू.स्था., 1.7.3-74): बिभर्ति दुर्बलोऽभीशं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः। दुःशयो दुर्मना रुक्षः क्षामश्चैवसः क्षये। हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीधत्सपीतकम्। ओजः शरीरं संख्यातं तत्राशाया विनश्यति। सार यह है कि ओजस के क्षय हो जाने से भय, दुर्बलता, चिंता, अकम्प्यता, पीडा, निरुत्साह, निस्तेज इन्द्रियों, शरीर की चमक में फीकापन, मन में दुःख, चेहरे में शुष्कता, और दमदार आवाज में कमी आ जाती है। ओजस हृदय में पाया जाता है और ओजस का नाश होने से शरीर चिन्त हो जाता है। तथाकथित-व्यंजन के नाम पर बाजार में उपलब्ध कचरा-भोजन या जंक-फूड के भरोसे ओजस का सत्यानाश हो रहा है। साफ़ बात यह है कि यदि हम आयुर्वेद में दी गयी सलाह के अनुसार अपना भोजन लें तो ओजस को नष्ट होने और अंततः शरीर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। इस दिशा में सात बातें महत्वपूर्ण हैं।

सबसे पहली बात यह है कि भोजन करने के पूर्व शरीर के समस्त आवेग शान्त हों। मन प्रसन्न व निर्मल हो। अपने स्वाभाविक भोजन-समय से बहुत पहले या बाद में भोजन करना अनुचित रहता है। रात में भोजन नहीं करना चाहिये। आधुनिक विज्ञान में हुये शोध, अनुभवजन्य ज्ञान एवं शास्त्रोक्त विचारों को एकत्रीकृत करते हुये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह मान लेना उचित होगा कि ग्रीष्मकाल में रात्रि 8.00 बजे, शरदऋतु में 7.00 बजे एवं वर्षा ऋतु में सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन करना हितकारी होगा। यथासंभव जमीन पर सुखासन या पालथी लगा कर, अर्पणों के साथ, प्रसन्न मन से संतुलित, पोषक और स्वादिष्ट भोजन करने का अपना आनंद है।

दूसरी बात यह है कि भोजन हितकारी, पोषक और संतुलित हो तथा अपनी पाचन शक्ति को देखते हुये ही ग्रहण किया जाये। भोजन में छः रसों-मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, व कसाय-का होना आवश्यक है। आहार की मात्रा व अन्न, और इन दोनों के संदर्भ में शरीर की क्षमता, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उदाहरण के लिये, शालि चारवल, मूंग आदि भले ही शीघ्र पाचने

आयुर्वेदोक्त भोजन और रसायन, ऑटोफैगी नामक प्रक्रिया को बढ़ावा देने का कार्य भी करते हैं। ऑटोफैगी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकायें स्वयं को खाकर द्रव्यों का पुनर्चक्रण कर लेती हैं। इस प्रक्रिया के बाधित होने पर पार्किंसन और मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऑटोफैगी एक मौलिक प्रक्रिया है जिसका हमारे स्वास्थ्य एवं बीमारियों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण स्थान है।

कारण अग्नि को उदीप्त नहीं कर पाते, अतः जब तक कठोर व्यायाम से अग्नि-बल बढ़ाने में सफलता नहीं मिलती, तब तक इन्हें तृप्तपूर्वक खाते ही छोड़ देने लगते हैं। अतः गरिष्ठ भोजन खाने से पूर्व अपने अग्नि-बल की हार्मोनल रचना खेच लेना चाहिये। आचार्य चरक ने कहा है कि गरिष्ठ भोजन को पेट के आधे भाग की तृप्ति तक ही लेना चाहिये। लघु पदार्थों को भी उचित मात्रा में ही खाना चाहिये, क्योंकि समुचित मात्रा में किया गया भोजन ही हमें बल, वर्ण, सुख तथा आयु प्रदान करता है। पीठी की तरह गूंधे गये आटे व उडद आदि की पीठी से बना हुआ भोजन भी गरिष्ठ होता है। अतः भोजन करने के पश्चात् पीठी से निर्मित व्यंजन, चावल या चनेवडा आदि को अल्प मात्रा में ही खाना चाहिये। अम्ल में बहुत तेज भूख होने पर ही इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का लेना उचित रहता है। सुखाई हुई सब्जियाँ, कमल की जड़, कमल की नाल आदि भी गुरु द्रव्य हैं, अतः इनका सेवन भी निरंतर नहीं करना चाहिये। दही या छाछ के साथ दूध को पका कर या फटे हुये दूध से बनाये गये बनाये गये व्यंजन एवं छैना, दही, उडद, जई आदि को भी लगातार प्रतिदिन नहीं खाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि आयुर्वेद में भोजन व्यक्ति-व्यक्ति की स्थिति, प्रकृति, एवं ऋतुओं के आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिये, सुखे मेवे, आलू, टमाटर, सेब, मटर, चना आदि वात को कुपित करते हैं, इसलिये वात प्रकृति के लोगों को इन पदार्थों को कभी-कभार ही लेना चाहिये। जबकि मीठे फल, जैसे अंगूर, केला, संतरा, नारियल, व लाल चावल वात प्रकृति के लोगों के लिये लाभकारी हैं। इसी प्रकार अधिक मसालेदार भोजन, मूंगफली का तेल, खट्टे फल, केला, पपीता, टमाटर, लहसुन आदि पित्त दोष को कुपित करते हैं। जबकि, आम, संतरा, नाशपाती, हरी सलाद आदि पित्त दोष को शान्त करते हैं। इसी प्रकार केला, नारियल, खजूर, पपीता, अनन्नास व विभिन्न दुग्ध-उत्पाद कफ को कुपित करते हैं, जबकि सुखे मेवे, अनार, सफ़ेद चावल, अंकुरित अनाज आदि कफ प्रकृति के लोगों के लिये उपयोगी रहते हैं।

चौथी बात, शालिधान्य, गेहूँ, जौ, साठी चावल, वनों में मिलने वाले खाद्य, हरड, आमला, दाख-मुनक्का, परवल, मूंग, खांड, धौ, वर्षा का स्वच्छ जल, दूध, मधु, अनार, सैन्धव लवण, और आँवों की ताकत बढ़ाने के लिये रात में मधु और घी के साथ त्रिफला का सेवन किया जाना चाहिये। इसके साथ ही स्वास्थ्य की रक्षा के लिये या रोगों से मुक्ति के लिये जो भी उपयोगी आहार हो उसे लिया जा सकता है। अनुभव के अनुसार जिन पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य वा बिगड़े या कोई नया रोग उत्पन्न नहीं हो, उन्हें खाया जा सकता है। नियमित भोजन में ऐसे द्रव्यों को भी थोड़ी मात्रा में शामिल किया जा सकता है जो आहार, रसायन और औषधि, तीनों ही प्रकारों में वर्गीकृत हैं। विविध प्रकार व विविध रंगों के स्थानीय मौसमी फल, खजूर, द्राक्षा, मुनक्का, बादाम, तिल, आँवला, लहसुन, सोंठ, कालीमिर्च, पिपली, हल्दी, केसर, जौरा, धनिया, शहद, गुड, एवं त्रिफला आदि ऐसे द्रव्य हैं जिनका थोड़ा सेवन उपयोगी रहता है। वर्षा से संग्रहित किया हुआ साफ जल ही सबसे उत्तम माना जाता है। भोजन के अंत में पानी पीना हानिकारक है। जरूरी हो तो अल्प मात्रा में ही लेना चाहिये।

पाँचवीं बात यह है कि कुछ खाद्य पदार्थ पकाने के बाद देर तक रख देने पर, बासी हो जाने पर या स्वरूप बदल जाने के बाद नहीं खाए जाने चाहिये। सूची तो बड़ी लम्बी है, पर सारांश में देखें तो ठंडा होने पर पुनः गर्म किया हुआ भोजन, सूख जाने के बाद पानी मिलाकर पुनः गीला किया हुआ भोजन, व कोंसे के पात्र में कई दिनों तक रखा हुआ घी नहीं खाना चाहिये। अधपाक, दुर्गन्धयुक्त, जला हुआ, स्वाभाविक रंग से भिन्न या रंग बदला हुये, पानी छोड़ चुके, बहुत नमक-युक्त, या बार-बार गरम किया हुआ बासी भोजन खाना हानिकारक है। गरम की हुई शहद, या शहद लेने के बाद गरम पानी पीना, रात्रि में दही या अधिक मिठाई, भोजन के अंत में मीठा और शुरुआत में तिक्त और कटु पदार्थ, गर्म पेय के तुरंत बाद ठंडा जल बर्जित है।

छठी बात यह है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं जो प्रायः एक दूसरे के साथ नहीं चलते। उडद व छाछ के साथ केला; नमक के साथ दूध; गुड, पिपली, शहद व कालीमिर्च के साथ पूड़ी; ककड़ी के दाल के साथ मूली; दही व दूध के साथ मूली; बासी या सूखी मूली; खट्टे फलों के साथ दूध; खीर, खोया, मलाई, व दूध के साथ खिचड़ी और अल्कोहल; खीर के साथ छाछ; दही के साथ खजूर; कमल-ककड़ी के साथ अंकुरित अनाज; शहद के साथ खजूर और दारु; और बराबर मात्रा में घी को शहद के साथ, या शहद, घी, वसा, तेल और जल को एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिये। शोध में पाया गया है कि ग्रीन चाय के साथ दूध, चाय के साथ लहसुन, अनार-रस के साथ अंगूर-रस, हरे टमाटर और आलू के साथ अल्कोहल नहीं लेना चाहिये।

और अंत में, आयुर्वेद के इतिहास में 5000 वर्षों के दौरान लिखे किये गये अनेकानेक ग्रंथों को खंगाल डालने पर कहीं भी पिञ्जादिवर्ग, बर्गरादिवर्ग, कुकुंरादिवर्ग, फिंगरचिप्पादिवर्ग, या मैयादिवर्ग जैसे आहार द्रव्यों का वर्णन नहीं प्राप्त होता। अतः आयुर्वेद के जन्मदाता समाज के मध्य इनका उपयोग वर्ष में एकाध दो बार स्वाद बदलने के लिये ही किया जाना हितकारी हो सकता है!

-अतिथि संपादक
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
(भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त; वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं)

खाद्य मिलावट के जहर से स्वास्थ्य पर कहर



अविनाश जोशी

खाद्य पदार्थों में मिलावट एक गंभीर मुद्दा है जो पीढ़ियों से हमारे भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। अब समय आ गया है कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए और मांग की जाए कि हमारा भोजन हानिकारक प्रदार्थों से मुक्त हो। पिछले एक दशक में, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खाद्य अपमिश्रण से आर्यों की रोशनी जाना, हृदय संबंधित रोग, लीवर खराब होना, कुष्ठ रोग, आहार तंत्र के रोग, पक्षाघात व कैसर जैसे हो सकते हैं। अनेक स्थायी उत्पादक एवं व्यापारी कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री में अनेक सस्ते अवयवों को मिलावट करते हैं, जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। नए रोगों के चलते डाक्टरों के यहां लगी रोगियों की लंबी कतारें काफी हद तक मिलावटी खाद्य पदार्थों का ही नतीजा हैं। सबसे विकट स्थिति उपभोक्ता के सामने होती है, जो ज्यादातर मामलों में असली सामान की पहचान करने की सलाहियत नहीं रखते। हम सब अपने खाने-पीने को लेकर इतने सजग होते हैं कि भोजन में जरा भी गड़बड़ होने पर उसे छोड़ देना बेहतर समझते हैं। मगर इस बात का पता शायद ही हमें कभी चल पाता है कि

बाजार में जितने भी खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, उनमें कितने मिलावटी हैं और वे हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। मगर इस बीच-बन्धा अलगाव के बीच मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम सहित कई कानून बनाकर इस मुद्दे को गंभीरता से स्वीकार किया है। हालांकि, खाद्य अपमिश्रण की प्रकृति हर राज्य में अलग-अलग होती है, और बदलते पर्यावरणीय कारकों या बेहतर उत्पादन और खेती के तरीकों के परिणामस्वरूप नए मिलावटकार पैदा हो सकते हैं। सामान्यतः बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट का संशय बना रहता है। दालें, अनाज, दूध, मसाले, घी से लेकर सब्जी व फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं है। आज मिलावट का सबसे अधिक कुप्रभाव हमारी रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली जरूरत की वस्तुओं पर ही पड़ रहा है। शरीर के पोषण के लिए हमें खाद्य पदार्थों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखने हेतु प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण आदि की पर्याप्त मात्रा को आहार में शामिल करना आवश्यक है तथा ये सभी पोषक तत्व संतुलित आहार से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। यह तभी संभव है, जब बाजार में मिलने वाली खाद्य सामग्री, दालें, अनाज, दुग्ध उत्पाद, मसाले, तेल इत्यादि मिलावट रहित हों। खाद्य अपमिश्रण से उत्पन्न की गुणवत्ता काफ़ी कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों में सस्ते रंग इत्यादि की मिलावट करने से उत्पन्न आकर्षक दिखने लगता है, परंतु पोषकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब से तीन दशक पहले सुनने को

मिलता था कि दूध सिंथेटिक हो सकता है। मगर काफी समय से यह यूरिया, अन्य रसायनों आदि के प्रस्ताव के बाद और जाने क्या-क्या मिलाकर तैयार किया जा रहा है। पनीर, केमिकल और पानी से और मावा मिल्क पाउडर से तैयार किया जा रहा है। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, हॉग, जौरा, काली मिर्च, सरसों का तेल, रिफाइट तेल इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरें आम हो गई हैं, मगर इस पर नजर रखने वाले महकमे शायद तब तक नौद में रहते हैं, जब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आ जाते हैं या फिर उसके बारे में लोगों को पता नहीं चल जाता। मुश्किल यह है कि अगर कभी जांच-पड़ताल होती है और जिन दुकानदारों के खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होते हैं, उनके मामले निचले स्तर के अधिकारियों या अदालतों में जाते हैं, जहां मामूली प्रक्रिया अपनाने के बाद उन्हें और बख्श दिया जाता है। जबकि केवल नकली मावे को ही देखें तो देश के कुछ इलाकों में यह कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। ऐसे कारोबारों से केवल जुर्माना लेकर छोड़ देने से अब स्थिति संभलने वाली नहीं है। दरअसल, कड़ी कार्रवाई की जरूरत इसलिए भी है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों को खाने की वजह से किसी व्यक्ति की सेहत खराब हो जा सकती है, बल्कि स्थिति बिगड़ने से मौत भी हो सकती है। इसलिए अगर मिलावटखोरों के खिलाफ हत्या के प्रयास से संबंधित कानूनी धारा का इस्तेमाल करने की मांग की जाती है तो इसमें कोई हैरानी बात नहीं है। सामान्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ में कोई बाहरी तत्व मिला दिया जाए या उसमें से कोई मूल्यवान पोषक तत्व निकाल लिया जाए या भोज्य पदार्थ को

अनुचित ढंग से संग्रहीत किया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसलिए उस खाद्य सामग्री या भोज्य पदार्थ को मिलावटयुक्त कहा जाएगा। भारत सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की मिलावट को रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए सन् 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम (पीएफए एक्ट 1954) लागू किया गया। उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसके ध्यान में रखते हुए उपरोक्त खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम बनाया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य जहरीले एवं हानिकारक खाद्य पदार्थों से जनता की रक्षा करना, प्रतिया खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकथाम एवम धोखापट्टी प्रथा को नष्ट करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। जब से कुछ लोगों ने इस पर गौर करना शुरू किया है, तब से कई हकीकतें उजागर होने लगी हैं। मिलावटखोरों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सही माल बेचने वाले दुकानदारों को भी लोग अंध शक की नजर से देखने लगे हैं। हालांकि मिलावटखोर केवल खाद्य पदार्थों में ही नहीं, अन्य सामानों की ओर भी अपने पैर फैला चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि जब कभी कोई मामला सामने आता है, उसके बावजूद सरकार इस काम में लगे लोगों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाती। जबकि जरूरत सख्त कार्रवाई करने की है। योंही हमारे आसपास हर रोज दुकानदार से लेकर किसी खाद्य पदार्थ का कारोबार करने वाले लोगों को मिलावटी सामान बेचने में जरा भी हिचक नहीं होती कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा!


-अविनाश जोशी,
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

अजीतगढ़ किले की दीवार गिरने का मंडराया खतरा, दरकने लगे दीवारों के पत्थर

बून्दी, (निसं)। तलवास के ऐतिहासिक अजीतगढ़ किले के मुख्य दरवाजे की दीवार गिरने का खतरा मंडराने लगा है। तलवास के जागरूक युवाओं ने दीवारों के दरकते पत्थरों और आने वाले पर्यटकों को सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि वन विभाग द्वारा ट्रैकिंग के लिए बनाए गए कच्चे रास्ते का निर्माण किले के मुख्य दरवाजे से होकर न किया जाकर प्राचीन पत्थर के परकोटे से होकर किया गया है।

युवाओं ने बताया कि ट्रैकिंग हेतु कच्चे रास्ते के निर्माण करते समय लापरवाही पूर्वक जेसीबी के किए गए उपयोग से किले की दीवार की जड़ें न सिर्फ कमजोर हुई हैं अपितु मशीन के कंपन से दीवारों के कमजोर होने से इसके गिरने का खतरा बढ़ गया है। इन्होंने कहा कि ट्रैकिंग रूट में मुख्य दरवाजे का उपयोग नहीं होने से यह ऐतिहासिक दरवाजा भी अनुपयोगी हो गया है। तलवास के युवा सुकुमार पंचोली, सांवार बिहारी जोशी, शम्भू बाबरिया, मुरली नागर, चंद्रशेखर तिवाड़ी, ऐश्वर्य शर्मा, अक्षय शर्मा, शिवम, आनंद शर्मा, देवराज गोचर व बारिश में पानी के रिसाव व बहाव के कारण होने वाले हादसे की संभावना

तलवास के जागरूक युवाओं ने दीवारों के दरकते पत्थरों और पर्यटकों की सुरक्षा पर चिंता जताई



मशीन के कंपन से किले की दीवारों के कमजोर होने से इसके गिरने का खतरा बढ़ गया है।

शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, अब राजस्थान के हर स्कूल की प्रोफाइल बनेगी

बीकानेर, (निसं)। प्रत्येक सरकारी स्कूल की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इस प्रोफाइल पर स्कूल संबंधित सभी प्रकार के डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर आशीष मोदी ने सभी सीडीओ, डीओ, सीबीओ व संस्था प्रधानों को एक परिपत्र जारी कर निर्देशित किया है। परिपत्र में शाला दर्पण पोर्टल के डाटा के समुचित उपयोग करने के बाद विद्यालय प्रोफाइल के प्रत्येक भाग में लास्ट अपडेटेड डाटा आवश्यक रूप से अंकित करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार बेसिक प्रोफाइल के अन्तर्गत विद्यालय का नाम, भौगोलिक जानकारी, माध्यम, बोर्ड

मान्यता क्रमांक, लोकसभा, विधानसभा, भौगोलिक सूचना, तृतीय भाषा, संचालित संकाय एवं विषय इत्यादि की सूचना अपलोड करनी होगी। सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत संस्था प्रधान, शाला दर्पण प्रभारी का विवरण सहित विद्यालय में संचालित एनसीसी, गाइड, स्काउट, बुलबुल, मीना मंच, युथ एवं इको क्लब, बाल संसद के संचालन आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। क्रमोन्नति संबंधित जानकारी में क्रमोन्नति का वर्ष, क्रमोन्नति क्रमांक एवं क्रमोन्नति का माध्यम आदि की जानकारी अपलोड की जाएगी। विद्यालय के पास या अन्य विद्यालयों का विवरण सहित विद्यालय में संचालित एनसीसी, गाइड, स्काउट, बुलबुल, मीना मंच, युथ एवं इको क्लब, बाल संसद के संचालन आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। क्रमोन्नति संबंधित जानकारी में क्रमोन्नति का वर्ष, क्रमोन्नति क्रमांक एवं क्रमोन्नति का माध्यम आदि की जानकारी अपलोड की जाएगी। विद्यालय के पास या अन्य विद्यालयों का विवरण सहित विद्यालय में संचालित एनसीसी, गाइड, स्काउट, बुलबुल, मीना मंच, युथ एवं इको क्लब, बाल संसद के संचालन आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी।

सीडीओ प्रतापलाल कड़ला ने कहा शिक्षा विभाग अब हर सरकारी स्कूल की शाला दर्पण पोर्टल पर एक प्रोफाइल तैयार करवा रहा है। इसमें हर स्कूल का डाटा मिलेगा। विभाग की गाइड लाइन के अनुसार इस पर कार्य चल रहा है। निकटतम अन्य नागरिक सेवा संस्थानों आदि की सूचना भी दर्ज करनी होगी। शिक्षा विभाग श्रीगंगानगर

राशिफल रविवार 4 अगस्त, 2024

सावन मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, रविवार, विक्रम संवत् 2081, पुष्य नक्षत्र दिन 1:26 तक, सिद्धि योग दिन 10:38 तक, नाग करण सायं 4:43 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-पंडित अनिल शर्मा कर्क, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरु-वृष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज सर्वाथ सिद्धि और रविपुष्य योग सूर्योदय से दिन 1:26 तक है। आज देव पितृकार्य अमावस्या, हरियाली अमावस्या, चितलगी अमावस्या है। आज सरान माधुरी जयन्ती है और नक्त व्रत आरम्भ होगा। आज फ्रेंडशिप डे है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 7:36 से 9:15 तक, लाभ-अमृत 9:15 से 12:33 तक, शुभ 12:14 से 3:51 तक। राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 7:09

मेघ घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। संभावित खेत से धन प्राप्त होगा।
सिंह व्यक्तिगत पेशानियों के कारण मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
धनु अपनी कार्य योजना को सोमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। परिवार में आपसी वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।
वृष परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। नये-पुराने मित्रों से संपर्क हो सकता है और मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।
कन्या आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खेत से धन प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।
मकर परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
कुंभ विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।
मिथुन घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।
कर्क अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आवश्यक कार्य योजनापूर करवने लगेंगे।
वृश्चिक नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मौन परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

'हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्वामी अवधेशाचार्य और उनके परिवारजनों को मुख्य द्वार से प्रवेश पर पुलिस ने रोका'

गलताजी ठिकाने के स्वामी अवधेशाचार्य ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2 अगस्त को जारी आदेश की पालना करवाने की मांग की

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। गलता पीठ ठिकाना की संपत्ति व महंत की नियुक्ति पर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। स्वामी अवधेशाचार्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को शिकायत भेजी है कि, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों ने 2 अगस्त की रात को उन्हें घर के मुख्य द्वार पर ही 3 घंटे रोक लिया। हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि दिखाने के बावजूद भी गलताजी धानाधिकारी और ए.सी.पी. रामगंज ने उनकी बात नहीं सुनी। जब कई बार समझाने पर भी पुलिस अधिकारी नहीं माने तो थक-हारकर स्वामी अवधेशाचार्य व उनके पुत्र राधवेन्द्र को धर्मशाला जाना पड़ा।

स्वामी अवधेशाचार्य ने बताया कि, राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 अगस्त आदेश देते हुए कहा था कि "स्वामी अवधेशाचार्य, मामले की अपील के फैसले तक महंत के पद से हटाए जा रहे हैं, वे महंत के पद पर दावेदारी नहीं करें, परंतु वे मंदिर परिसर में बने निवास पर रह सकते हैं और पूजा-अर्चना भी जारी रख सकते हैं।"

स्वामी अवधेशाचार्य की ओर से जयपुर कलेक्टर को लिखे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि, उनके घर के मुख्य द्वार, जो मंदिर परिसर की तरफ खुलते हैं, उसे सील करके बंद कर दिया गया है। इस कारण उन्हें अपने निवास तक आने-जाने के लिए रास्ता नहीं मिल



राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने शुक्रवार देर रात गलताजी मंदिर परिसर स्थित आवास पर जाने से स्वामी अवधेशाचार्य और उनके पुत्र स्वामी राधवेन्द्र को रोक लिया।

- शिकायत में अवधेशाचार्य की ओर से कहा गया है कि, "उनके घर के मुख्य द्वार, जो मंदिर परिसर की तरफ खुलते हैं, उसे सील करके बंद कर दिया गया है। इस कारण उन्हें अपने निवास तक आने-जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें अपने घर के पीछे बने गार्डों के बाड़े के रास्ते से घर में आना पड़ रहा है।"
- शिकायत में कहा गया है कि, "राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 2 अगस्त को स्वामी अवधेशाचार्य को मंदिर परिसर में बने अपने निवास पर रहने और आने-जाने के लिए फ्लट दी है।" उन्होंने इस आदेश की प्रतिलिपि भी पुलिस अफसरों को दिखाई, इसके बावजूद उन्होंने शुक्रवार रात को करीब 3 घंटे तक उन्हें मुख्य द्वार पर रोककर रखा, जो कि हाईकोर्ट के आदेश की सरासर अवहेलना है।

रहा है। उन्हें अपने घर के पीछे बने गार्डों के बाड़े के रास्ते से घर में आना पड़ रहा है।

स्वामी अवधेशाचार्य ने अपनी शिकायत में कहा कि, "2 अगस्त को रात करीब पौने 9 बजे वह अपने पुत्र के साथ निवास की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर की तरफ खुलने वाले उनके घर के



स्वामी अवधेशाचार्य के मुख्य निवास पर प्रशासन द्वारा लगाई गई पेंपर सील की फोटो उनके पुत्र स्वामी राधवेन्द्र द्वारा साझा की गई।

मुख्य द्वार को सील कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें और उनके पुत्र को घर के दरवाजे पर तैनात पुलिस अफसरों ने 3 घंटे तक रोककर रखा। मंदिर परिसर में मौजूद ए.सी.पी. रामगंज व गलता धानाधिकारी का कहना था कि, "प्रशासन द्वारा उन्हें आदेश दिए गए हैं कि, इस द्वार से किसी की एंट्री नहीं होने दी जाए दरवाजे पर सील प्रशासन के आदेशों पर ही लगाई गई है, जिसे खोलने के लिए उन्हें कोई आदेश नहीं मिला है।"

स्वामी अवधेशाचार्य ने शिकायत में लिखा है कि, पुलिस के दोनों वरिष्ठ अफसरों ने उन्हें घर के द्वार पर रोकते हुए कहा कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है सील खोलने का। ए.एस.ओ. ने कहा कि मेरी अतिरिक्त कलेक्टर (एडीएम) से बात हो गयी है, वे यहां पहुंच रहे हैं। रात को करीब 2 घंटे तक स्वामी अवधेशाचार्य व उनके पुत्र राधवेन्द्र, जिला प्रशासन के

मौके पर पहुंचने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। पुलिस द्वारा टोकाटोकी व घर में प्रवेश से रोकने के प्रयास का वीडियो भी स्वामी अवधेशाचार्य की ओर से रिकॉर्ड किया गया है। स्वामी अवधेशाचार्य ने पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रोकने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। धानाधिकारी लिखमराम ने यहां तक कह दिया कि, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपको सील खोलकर अंदर जाने नहीं दे सकते।"

स्वामी अवधेशाचार्य ने जिला कलेक्टर को इस पूरे प्रकरण की शिकायत करते हुए लिखा कि, जिला प्रशासन की ओर से ऐसा स्पष्ट आदेश पारित किया जाए, जिससे कि मंदिर परिसर में तैनात सरकारी अधिकारी व पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार उनके घर के मुख्य द्वार पर लगाई गई पेंपर सील को हटाए

आर्यिका निरंजनमती माताजी का यमसल्लेखना पूर्वक समाधि मरण



बिलवा स्थित शान्तिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गणिनी आर्यिका नंगमती माताजी के सानिध्य में हुई समाधि।

जयपुर। टॉक रोड के बिलवा स्थित शान्तिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुधर्म नंग अहिंसा ट्रस्ट के परिसर में गणिनी आर्यिका रत्न सुपाश्र्वमती माताजी एवं गणिनी आर्यिका रत्न गौरवमती शिष्या आर्यिका निरंजनमती माताजी का यम सल्लेखना पूर्वक सम्यक समाधिमरण गणिनी आर्यिका नंगमती माताजी के सानिध्य में हो गया। जिसके पश्चात जैन परंपराओं के अनुसार ब्रह्मचारी जिनेश भैया के निर्देशन में निरंजनमती माताजी की अंतिम डोल यात्रा निकाली गई और मंत्रोच्चारण के साथ माताजी के शरीर को पंचत्वत्त में विलीन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और पूज्य माताजी को नम आंखों के साथ विदाई दी। अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा एकता संघ अध्यक्ष अभिषेक

जैन बिट्टू ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्यिका निरंजनमती माताजी को सर्व प्रथम छुल्लिका दीक्षा 15 फरवरी 2015 को गणिनी आर्यिका रत्न गौरवमती माताजी द्वारा मानसरोवर स्थित वरुण पथ जैन मंदिर पर प्रदान की गई थी, उस समय माताजी को श्रेयांशमती नाम प्रदान किया गया था, क्योंकि उस दिन तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक पर्व था। इसके पश्चात वर्ष 2021 में गणिनी आर्यिका गौरवमती माताजी का देवलोक हो जाने के बाद छुल्लिका श्रेयांशमती माताजी गणिनी आर्यिका नंगमती माताजी के संघ में सम्मिलित हो गई थी, नंगमती माताजी द्वारा 31 जुलाई 2024 को ही आर्यिका दीक्षा प्रदान की गई थी, तब माताजी को निरंजनमती नाम प्रदान किया गया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे राज्यपालों के सम्मेलन में शामिल हुए

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने शुक्रवार और शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया। बागडे राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मेलन में एक भारत श्रेष्ठ भारत, 'एक वृक्ष मां के नाम' और प्राकृतिक खेती अभियान, राज्यपालों का जनता से सतत संपर्क, राज्यपालों की भूमिका और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में राज्यपालों की भूमिका जैसे विषयों के विभिन्न सत्रों में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदि ने संबोधित किया।

अधिकारियों के विरुद्ध लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति के विचारार्थीन विभिन्न प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने 7 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों को सीसीए नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत दण्डित करने तथा 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर आरोप के समाप्तप्राप्तिक पेंशन रोकने का निर्णय किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रमाणित आरोप का अनुमोदन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अप्रमाणित पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को दोषमुक्त किया। शर्मा ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार के प्रकरणों में न्यायालय से दोषसिद्धि के 2 प्रकरणों में दोषी चिकित्सकों को राजकीय सेवा से पदच्युत किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत प्रस्तुत 3 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुनरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अभाव में खारिज तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 1 प्रकरण में प्रस्तुत अपील अंतर्गत नियम 53(4) को अस्वीकार किया। साथ ही, धारा 17-ए के 2 प्रकरणों में प्रथम दृष्टया कार्यवाही योग्य नहीं होने से परिवाद लंबित कर विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने की अनुमति प्रदान नहीं की।

पत्थर से युवक का सिर फोड़ा

जयपुर। शिवदासपुर थाना इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने पत्थर से हमलाकर पैदल जा रहे मजदूर का सिर फोड़ दिया और फिर मारपीट कर उससे मोबाइल व नकदी छीनकर ले गए। पुलिस के अनुसार मूलतः यूपी हाल रामचंद्रपुरा निवासी नाजीमुल ने मामला दर्ज करवाया कि वह गिरामिड कंपनी में काम करता है। एक अगस्त को दोपहर वह कंपनी से खाना खाने पैदल ही अपने रुम पर जा रहा था। तुलुंग कॉलेज के पास पीछे से बाइक सवार दो बदमाश आए और

बदमाशों से पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया। इसके बाद वह सड़क पर गिर गया। बदमाशों ने उसके साथ लात-घुसे से मारपीट की और उससे मोबाइल व जेब में रखे 5200 रुपये निकाल कर ले गए। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उससे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंच कर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना स्थल और उसके आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

पूर्व पत्नी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर, (का.सं.)। महानगर द्वितीय की महिला उल्डीन प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व पत्नी के घर में घुसकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पूर्व पति को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के साथ इस प्रकृति के अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता ने 14 अक्टूबर, 2021 को आरंभ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने पुत्र और पुत्री के साथ रहती है। उसका अपने शौहर से 9 अप्रैल, 2021 को तलाक हो चुका है। इसके बावजूद वह आए दिन उसे व बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर बलाकार करता है।

पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए राज्य बजट में दी गई ढेरों सौगातें : भजनलाल शर्मा

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं से विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाएं एवं उम्मीदें इस बजट से पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि किसान, पशुपालक, युवा, महिला सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिरसोही एवं बाली सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से राज्य बजट में की गई घोषणाओं के लिए धन्यवाद देने आए देवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के सभी वादों को हमारी सरकार पूरा कर रही है।



बजट सौगातों के लिए देवासी समाज के प्रतिनिधियों ने आधार जताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जालोर-सिरसोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, देवनायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, समाराम एवं गोपीचंद मीणा सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायतों में इस वर्ष 500 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने सहित विभिन्न घोषणाएं राज्य बजट में की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं के विकास, भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य व उपकरण आदि के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊंटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा एवं पंजीकृत गौशालाओं को देय

अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। शर्मा ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से सरदारशहर-चूरू, रानीवाड़ा-सांचौर, झालावाड़, भतरपुर, नागौर तथा बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का सुदृढीकरण, 95 करोड़ रुपये की लागत से पाली में 30 मॉडिक टन क्षमता का अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट हेतु 25 करोड़ रुपये से कोटा में केटल फीड प्लांट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 हजार नये डेयरी बूथ खोले जाएंगे। इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र बनाएंगे, 2 वर्षों में 1 हजार 500 नई दुग्ध सहकारी समितियां तथा किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने हेतु 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोले जाएंगे। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जालोर-सिरसोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, देवनायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, समाराम एवं गोपीचंद मीणा सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग उपस्थित रहे।

पहले 10 ब्लॉक कांग्रेस को भंग किया विरोध पर दो को फिर बहाल किया

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने फीडबैक के आधार पर संगठन को पुनर्गठन कर पञ्चबूत करने के लिए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर 100 ब्लॉक कांग्रेस एवं मंडल कांग्रेस कमेटियों को भंग किया, लेकिन इस काम में गफलत हुई तो दसों के दो ब्लॉक को भंग करने का आदेश निरस्त भी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों पर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक प्रदेश के दो ब्लॉक को भंग करने का आदेश निरस्त भी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों पर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक प्रदेश के दो ब्लॉक को भंग करने का आदेश निरस्त भी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों पर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक प्रदेश के दो ब्लॉक को भंग करने का आदेश निरस्त भी कर दिया।

नाम परिवर्तन

मैं, हेमलता शर्मा पुत्री श्री राममोपाल शर्मा निवासी- 57, शिवविहार-ए, जनक पैराइडज के पास, मानसरोवर, जयपुर ने विवाहोपरंतु अपना नाम हेमलता शर्मा से बदलकर हेमा कौशिक पति श्री विनोद कौशिक रख लिया है, भविष्य में मुझे हेमा कौशिक के नाम से ही जाना जाये। मैं नः 15224134N नायक बरशिले राहुल ज्ञानदेव पता- ग्राम पोस्ट ऑफिस- जवना, तहसील पारनेर, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पत्नी का नाम वैशाली है जो गलत है। सही नाम बरशिले वैशाली राहुल है। शपथ पत्र संख्या 0005/22570 दिनांक- 05/05/2024 मैंने अपना नाम विजय कुमार गुप्ता से बदल कर विजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री शिवचरण सिंघल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी 4-YA-12, जवाहर नगर, जयपुर I Army No-15704201P (TTC) Santosh Baro Slo Nakul Chandra Baro Presently Posted 71 Network Signal REGT Jaipur, My Service Record My Wife Name is SRI Pranita Baro which is wrong. Correct Name is Pranita Baro is Enter Correct Name.

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक कराये।

गाय को बचाने के चक्कर में एसयूवी कार पलटी, चार लोगों की मौत

पांच लोग घायल, तीन को किशनगंज अस्पताल व दो को बारां जिला अस्पताल में भर्ती कराया

कोटा, (निर्स)। बारां जिले के भंवरगढ़ से किशनगंज के बीच भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। हादसे में मौत के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच जने घायल हो गए। मृतक और घायल एक एसयूवी बोलरो में सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि इसमें गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे-27 पर भंवरगढ़ से किशनगंज के बीच देर रात को ये भीषण सड़क

दुर्घटना हुई है। इसमें मौत के चार लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर रोहितारा कुमार सिंह तोमर और एसपी राजकुमार चौधरी ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मृतकों के शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। घायलों को त्वरित उपचार के निर्देश दिए गए।

एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि एसयूवी में सवार होकर भंवरगढ़ से बारां की तरफ ये लोग

हादसा इतना भीषण था कि इसमें एसयूवी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई

आ रहे थे। भंवरगढ़ ढाबे के नजदीक हाईवे पर ही करीब 10.30 के आसपास इनकी एसयूवी के सामने अचानक से गोवंश आ गया। इसे बचाने का प्रयास चालक ने किया,

लेकिन इसके चलते एसयूवी अनियंत्रित हो गई। इसके बाद पलटते हुए सड़क किनारे चली गई। सूचना मिलने पर नेशनल हाईवे की पेट्रोलिंग टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और इन्हें बारां जिला अस्पताल भेज दिया गया।

मृतकों में शाहबाद इलाके के रामपुर उपरेटी गांव निवासी लाखन सहरिया, फूलचंद सहरिया व हरिचंद मेहता और मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र निवासी राजू सहरिया

शामिल है। जबकि दुर्घटना में पांच लोग भी बुरी तरह से जखमी हुए हैं। जिनमें से तीन का उपचार किशनगंज अस्पताल में करवाया जा रहा है जबकि दो को बारां जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले ही हाईवे पर बारां के नजदीक ही गोवंश सामने आ जाने के चलते दो बसों की भिड़ंत हो गई थी। इसमें भी एक बस के पलट जाने के चलते दो लोगों की मौत हुई थी व कुछ घायल हुए थे।

कार-बोलरो की भिड़ंत में एक की मौत, सात घायल

सादुलपुर, (निर्स)। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गांव लसेड़ी के नजदीक शनिवार दोपहर को एक कार और बोलरो जीप की हुई जबरदस्त भिड़ंत में

कार में सवार लोग अमृतसर पंजाब से श्याम बाबा के दर्शनों के लिए खादूश्यामजी आ रहे थे



घायल लोगों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया।

कार चालक की मौत हो गई तथा सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों में गंभीर एक महिला सहित दो लोगों को हिसार रेफर किया गया है।

सूचना मिलते ही एस.आई. सुरेंद्र सिंह मय पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे तथा सभी घायलों को दो एंबुलेंस से श्रीनाथ जी अस्पताल में भर्ती करवाया। कार में सवार लोग अमृतसर पंजाब से खादूश्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे, जबकि बोलरो में सवार लोग राजगढ़ तहसील के गांव सूरतपुरा से रोडवेज बस स्टैंड गेट के आगे निकाली नहीं होने से पानी भर जाने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के कई निचले इलाकों में लगातार बारिश के चलते पानी नजर आने लगा है। लगातार बारिश का दौर जारी रहने से तापमान में गिरावट देखी गई। जिला कलेक्टर ने भी बारिश के समय नदी-नालों में वाहन नहीं उतारने व पानी के पास नहीं जाने की सलाह दी है। जिले के कई नालों व बांधों में पानी की आवक नजर आई। वहीं मानसून की

आ गई और दोनों में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कार चालक रघु पुत्र राकेश अरोड़ा निवासी अमृतसर को चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए हिसार रेफर कर दिया था, लेकिन हिसार पहुंचने से पहले रास्ते में ही चालक ने दम तोड़ दिया।

एस.आई. सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कार में सवार लोग अमृतसर पंजाब से खादूश्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे तथा कार को रघु अरोड़ा चला रहा था। कार में एक वर्षीय बालिकावाणी तथा कार चालक का छह वर्षीय पुत्र अगम अरोड़ा, नीतीश पुत्र जगदीश

अरोड़ा, मीनाक्षी पत्नी नीतीश कुमार तथा कार चालक रघु की पत्नी कोमल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बोलरो जीप में तहसील गांव सूरतपुरा निवासी संजय पुत्र बजरंग नाई, कुलदीप पुत्र राजवीर जाट, मंजू पत्नी जगदीश जाट, मनीषा पत्नी कुलदीप जाट जीप में सवार होकर बैंक संबंधी काम के लिए गोठया बड़ी जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी को गंभीर चोटें लगी हैं तथा मंजू पत्नी जगदीश व बोलरो चालक संजय पुत्र बजरंग नाई को गंभीर चोट लगने के कारण हिसार रेफर किया गया है। देर शाम तक मामला दर्ज नहीं हुआ है।

जालोर में दो दिन से बारिश का दौर जारी, नदी-नालों में पानी की आवक

बाडमेर जिले के रामसर में सर्वाधिक तीन इंच बरसात हुई, राहत मिली

जालोर, (कास)। जिलेभर में गत दो दिन से लगातार रूक-रूक कर कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश से नदी-नालों में पानी की आवक देखी गई।

जालोर शहर के कई निचले इलाकों में बारिश के चलते पानी नजर आने लगा



जालोर में बारिश के बाद कलेक्टर गेट के आगे पानी भर गया।

जालोर में शुक्रवार व शनिवार को रूक-रूक कर बारिश का दौर जारी रहने से चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा है। वहीं जालोर शहर के कलेक्टर गेट, रोडवेज बस स्टैंड गेट के आगे निकाली नहीं होने से पानी भर जाने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के कई निचले इलाकों में लगातार बारिश के चलते पानी नजर आने लगा है। लगातार बारिश का दौर जारी रहने से तापमान में गिरावट देखी गई। जिला कलेक्टर ने भी बारिश के समय नदी-नालों में वाहन नहीं उतारने व पानी के पास नहीं जाने की सलाह दी है। जिले के कई नालों व बांधों में पानी की आवक नजर आई। वहीं मानसून की

अच्छी बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर खुशी देखी गई।

बाडमेर संवाददाता के अनुसार :- प्रचंड गर्मी से धक्क रहे बाडमेर पर मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बीच शनिवार को अलसुबह ही बारिश का दौर शुरू हो गया जो दिनभर कभी तेज तो कभी धीमे होते हुए चलता रहा। मौसम विभाग के यैलो अलर्ट के बाद जिला कलेक्टर ने शनिवार को

जिले की सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों का अवकाश घोषित कर दिया। जिले में अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई है। उनका मानना है कि ये बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। पिछले 24 घंटों में बाडमेर जिले के रामसर में सर्वाधिक करीब तीन इंच और सबसे कम धोरीमन्ना में 2 एमएम बारिश हुई है। बाडमेर में 38, बाडमेर ग्रामीण में

36, चौहटन में 32, शिव में 10, धोरीमन्ना में दो, धनाऊ में 16 एमएम, रामसर में 80 एमएम, गडरोडा 4.5 एमएम और नोखडा में 18 मिलीमीटर बारिश हुई है। शनिवार सुबह बारिश शुरू होने के बाद जिला कलेक्टर निशान जैन ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के जल भराव वाले इलाकों का जायजा लेकर पानी की निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ढाई सौ साल पुराने मंदिर की दीवार बारिश से धंसी

राधा-कृष्ण मंदिर की दीवार धंसी, घरों में दरारें आईं

चूरू, (कास)। शहर के सब्जी मंडी पार्क के पास स्थित 250 वर्ष पुराना राधा-कृष्ण भगवान का दिव्य मंदिर का आंगन व चारों तरफ की दीवार गुस्कार को आई बारिश से धंस गई।

जानकारी के अनुसार मंदिर के अंडरग्राउंड में बारिश का पानी भरने से वह धंस गया, जिससे मंदिर को काफी नुकसान हुआ है। यह मंदिर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है। अब यह मंदिर गिरने के कगार पर है और गनिमत यह रही कि इसमें कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। मंदिर धंसने से आसपास के घरों में भी दरारें पड़ गईं। मंदिर के पुजारी संजय राज सारस्वत ने बताया कि कई वर्षों पूर्व यह मूर्ति मंदिर



बारिश के कारण दीवार धंस जाने से गिरने के कगार पर पहुंचा मंदिर। के अंडरग्राउंड में स्थापित थी। उस समय मंदिर की पूजा जगदीश प्रसाद पुजारी करते थे। 100 वर्ष पूर्व मूर्ति स्थापना ऊपर की गई थी।

सायला में दिनभर चला बारिश का दौर

सायला, (निर्स)। उपखण्ड मुख्यालय सहित आसपास के गांवों में शनिवार को इन्द्रदेव मेहरवान रहे तथा दिनभर बारिश का दौर जारी रहा। यह बारिश कभी हल्की तो कभी तेज होती रही, जिससे लम्बे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों से एकबारगी चिंता के बादल छट गए।

बारिश के कारण पुराना बस स्टैंड, पंचायत समिति मोड़, पीडब्ल्यूडी के आगे, पोस्ट ऑफिस रोड आदि स्थानों पर सड़क पर पानी जमा हो गया, जिससे राहगीरों एवं वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं खेतों में अच्छी बारिश से फसलों को भी संजीवनी मिली है। इधर बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया। अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई है। उनका मानना है कि ये बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी।

झाड़ोल में पौने दो इंच, उदयपुर शहर में रिमझिम बरसात हुई

जिले में केचमेंट सहित कई जगहों पर अच्छी बारिश, झीलों में पानी की आवक शुरू होने की आस बंधी



राजसमंद में मोही कस्बे के बनास नदी एनीकट पर चादर चलने से बहता पानी।

उदयपुर, (कास)। लेकसिटी में शनिवार को दिनभर रिमझिम बारिश होती रही। जिले में केचमेंट सहित कई जगहों पर अच्छी बारिश के समाचार मिले हैं। शाम पांच बजे तक बीते 12 घंटों में झाड़ोल में सर्वाधिक 40 मिमी (पौने दो इंच) बारिश रिकॉर्ड की गई।


लेकसिटी में आज हो रही बारिश ने झीलों के भरने की आस बंधा दी है। शहर में हालांकि रिमझिम का दौर चला लेकिन केचमेंट के कई हिस्सों में अच्छी बरसात हुई है। पीछोला को भरने वाली सीसारामा नदी और फतहसागर को भरने वाली मदार नहर अभी नहीं चली है लेकिन लेकसिटी में मौसम विभाग के यैलो अलर्ट के बीच रविवार को कई हिस्सों में 200 मिमी तक

सूदखोरों से परेशान होकर अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

मृतक के बेटे ने दो लोगों पर ज्यादा ब्याज मांग कर परेशान करने का आरोप लगाया

भीलवाड़ा, (निर्स)। शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की पटेल नगर कॉलोनी में रहने वाले एक अधेड़ ने सूदखोरों से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

मृतक के पुत्र बालसिंह भाटी ने बताया कि पिता देवी सिंह (62) ने भैरुलाल और बबलू नामक दो व्यक्तियों से ब्याज पर पैसा उधार लिया हुआ था, जो ब्याज चुकाने के बावजूद घर पर आकर आए दिन परेशान करते थे। करीब एक माह से चल रहे ब्याज माफियाओं के आतंक से परेशान होकर देवी सिंह ने अपने ही घर के सामने स्थित पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग के बेटे को रिपोर्ट पर सूदखोरों के खिलाफ खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। मृतक के बेटे बाल सिंह ने बताया कि उसके पिता देवीसिंह को दो लोग बबलू सांसी और भैरू गुर्जर ज्यादा ब्याज मांग कर परेशान कर रहे थे और धमकियां दी जा रही थी। इन्होंने परेशान



मृतक देवी सिंह।

होकर उसके पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

प्रताप नगर थाना प्रभारी गजेन्द्र नरुका ने बताया कि बाल सिंह की रिपोर्ट पर बबलू सांसी व भैरू गुर्जर के खिलाफ देवीसिंह को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के का मामला दर्ज कर

लिया है। बेटे बाल ने बताया कि उसके छोटे भाई की शादी के लिए पिता देवी सिंह ने आरोपित बबलू सांसी से एक लाख और भैरू गुर्जर से 50 हजार रुपये ब्याज पर उधार लिए थे। देवी सिंह ही इस राशि को किश्तों व ब्याज अदा कर रहे थे। बाल सिंह का कहना कि दोनों आरोपित देवी सिंह को ज्यादा ब्याज राशि मांग कर परेशान कर रहे थे। घटना के वक्त सुबह जब उसके पिता का शव फंदे से झूल रहा था, तब भी उनकी जेब में पड़े मोबाइल पर सूदखोर का फोन आ रहा था।

इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। परिजनों ने कॉल रिसीव किया। यह कॉल भैरुलाल गुर्जर का था और वह पैसे की ही मांग कर रहा था। वहीं सूदखोरों के आरोपित बबलू सांसी पर मृतक के बेटे बाल सिंह ने एक और आरोप लगाया कि उसके पिता की बाइक थी, जिसे भी आरोपित छीन ले गया था। यह बाइक आज तक उसने नहीं लौटाई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सभी आरोपी को जांच शुरू कर दी है।

तीन लाख की रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र प्रतापगढ़ के संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया

जयपुर/प्रतापगढ़, (निर्स)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्रतापगढ़ टीम ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जिला प्रतापगढ़ के संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक राजीव गर्ग तीन लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है।

एसीबी की प्रतापगढ़ टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कर ट्रेप को कार्रवाई करते हुए आरोपित राजीव गर्ग को तीन लाख

रुपये की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपित द्वारा शिकायत से पूर्व भी परिवारी से 50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। एसीबी के कार्रवाई के दौरान आरोपित के जयपुर स्थित मकान एवं फंदा फंटे की तलाशी के लिये पहुंची तो दोनों बन्द मिले जिन्हें सील किया गया है। न्यायालय से आरोपित का रिमांड लिया जाकर उसकी उपस्थिति में ही उक्त ठिकानों की तलाशी ली जायेगी।

रुपये की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपित द्वारा शिकायत से पूर्व भी परिवारी से 50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। एसीबी के कार्रवाई के दौरान आरोपित के जयपुर स्थित मकान एवं फंदा फंटे की तलाशी के लिये पहुंची तो दोनों बन्द मिले जिन्हें सील किया गया है। न्यायालय से आरोपित का रिमांड लिया जाकर उसकी उपस्थिति में ही उक्त ठिकानों की तलाशी ली जायेगी।

बाइक सहित नदी की रफ्त में बहे दो युवक

पाली, (नि.सं.)। पाली के निकट खेरवा बनियावास गांव की नदी पिछले दो दिन से बह रही है। शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे दो युवक एक फीट चल रही रफ्त पर ग्रामीण के मना करने पर भी चले गए जहां बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक के साथ दोनों पानी में बह गए। गनीमत रही कि नदी में करीब 3 फीट पानी था, जिससे दोनों को ग्रामीणों ने बचा लिया। बनियावास सरपंच प्रतिनिधि सरवन राम ने बताया कि दोनों युवक शराब पीए हुए थे। लोगों के मना करते हुए भी नदी की रफ्त में बाइक उतार दी थी।

न्यायालय उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र प्रतापगढ़ के संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया

जयपुर/प्रतापगढ़, (निर्स)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्रतापगढ़ टीम ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जिला प्रतापगढ़ के संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक राजीव गर्ग तीन लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है।

एसीबी की प्रतापगढ़ टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कर ट्रेप को कार्रवाई करते हुए आरोपित राजीव गर्ग को तीन लाख रुपये की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपित द्वारा शिकायत से पूर्व भी परिवारी से 50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। एसीबी के कार्रवाई के दौरान आरोपित के जयपुर स्थित मकान एवं फंदा फंटे की तलाशी के लिये पहुंची तो दोनों बन्द मिले जिन्हें सील किया गया है। न्यायालय से आरोपित का रिमांड लिया जाकर उसकी उपस्थिति में ही उक्त ठिकानों की तलाशी ली जायेगी।

राजसमंद में मोही कस्बे के बनास नदी एनीकट पर चादर चलने से बहता पानी।

मोही के बनास नदी एनीकट पर चादर चली

राजसमंद, (निर्स)। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती मोही कस्बे के बनास नदी स्थित एनीकट पर शनिवार को चादर चल रही है। गांव में शुक्रवार को दिनभर हुई बारिश के चलते नदी-

नालों में पानी बहने लगा। बनास नदी स्थित एनीकट पर चादर चल रही है। बनास नदी में पानी की आवक को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

राजसमंद, (निर्स)। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती मोही कस्बे के बनास नदी स्थित एनीकट पर शनिवार को चादर चल रही है। गांव में शुक्रवार को दिनभर हुई बारिश के चलते नदी-नालों में पानी बहने लगा। बनास नदी स्थित एनीकट पर चादर चल रही है। बनास नदी में पानी की आवक को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

उदयपुर शहर में 6 मिमी, स्वरूपसागर 5 मिमी, उदयसागर 11 मिमी, मदार 23 मिमी, अलसीगढ़ 18 मिमी, वल्लभनगर 11 व ओंगणा में 21 मिमी बरसात हुई है।

बालोतरा में तेज बारिश से मुख्य बाजार में तीन फीट पानी भरा

बालोतरा, (निर्स)। बालोतरा में शनिवार अल सुबह बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश से शहर के मुख्य बाजार में तेज बारिश के चलते पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कई दुकानों में पानी घुस गया। इधर, मौसम विभाग के


अलर्ट के बाद प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी है। बालोतरा शहर के शौकी चौक, घंटाघर मार्केट, गौर का चौरा, नयापुरा, नेहरू कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में 20 मिमी की बारिश में जल भराव हो गया, जिससे बाजार की दुकानों के अंदर पानी चला

गया, जिससे दुकानदारों व आने-जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर नेहरू कॉलोनी भुगत सिंहा सभा स्थल के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति सीवरेज के गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। लंबे समय से सीवरेज के चेम्बर पर ढक्कन नहीं लगाया गया है।

#BOTANY

Plant Patch

The earlier growers can identify plant diseases or fungal infections, the better able they will be to limit the spread of the disease and preserve their crop.



An electronic patch, applied to the leaves of plants, can monitor crops for different pathogens, such as viral and fungal infections, and stresses such as drought or salinity. In testing, researchers found that the patch was able to detect a viral infection in tomatoes more than a week before growers would be able to detect any visible symptoms of disease.

"This is important because the earlier growers can identify plant diseases or fungal infections, the better able they will be to limit the spread of the disease and preserve their crop," says Qingshan Wei, an assistant professor of Chemical and Biomolecular Engineering at North Carolina State University and corresponding author of a paper in *Science Advances*. "In addition, the more quickly growers can identify abiotic stresses, such as irrigation water contaminated by saltwater intrusion, the better able they will be to address relevant challenges and improve crop yield."

"The technology builds on a previous prototype patch, which monitors volatile organic compounds (VOCs), emitted by plants to detect disease. Plants emit different combinations of VOCs under different circumstances. By targeting VOCs that are relevant to specific diseases or plant stress, the sensors can alert users to specific problems."

"The new patches incorporate additional sensors, allowing them to monitor temperature, environmental humidity, and the amount of moisture being 'exhaled' by the plants via their leaves," says co-corresponding author Yong Zhu, professor of Mechanical and Aerospace engineering.

The patches themselves are small, only 30 millimetres long,



Florence Griffith-Joyner.

Usain Bolt.



Prakash Bhandari
The writer is a senior journalist

Athletics is the foremost, rather, mother of all sports. The word 'athletics' is derived from the Ancient Greek (athletes) combatant in public contests in general, i.e. sporting competition based primarily on human physical feats. In the 19th century, the term 'athletics' acquired a narrower definition in Europe and came to describe sports involving competitive running, walking, jumping and throwing. Athletics is a group of sporting events that involves competitive running, jumping, throwing and walking.

The researchers tested the patches on tomato plants in greenhouses, and experimented with patches that incorporated different combinations of sensors. The tomato plants were infected with three different pathogens, tomato spotted wilt virus (TSWV), early blight, which is a fungal infection, and late blight, which is a type of pathogen called an oomycete.

The plants were also exposed to a variety of abiotic stresses such as overwatering, drought conditions, lack of light, and high salt concentrations in the water.

The researchers took data from these experiments and plugged them into an artificial intelligence program to determine which combinations of sensors worked most effectively to identify both disease and abiotic stress.

"Our results for detecting all of these challenges were promising across the board," Wei says. "For example, we found that using a combination of three sensors on a patch, we were able to detect TSWV four days after the plants were first infected. This is a significant advantage, since tomatoes don't normally begin to show any physical symptoms of TSWV for 10-14 days."

The researchers say that they have two steps away from having a patch that growers can use. First, they need to make the patches wireless, a relatively simple challenge. Second, they need to test the patches in the field, outside of greenhouses, to ensure that the patches will work under real-world conditions. This could be a significant help to address food security challenges in a meaningful way.

station at the first Olympic Games was Coreobus of Elis.

The stadium, named for the facility in which it took place, was simple, run the length of the arena, which was approximately 200 yards (180 meters). Since then, sprinting has evolved and grown immensely since the first barefoot and naked competitors ran the stadium on that exposed ground.

When the modern Olympic Games began in 1896, sprinters ran a 100-meter dash and 400-meter dash. A 200-meter dash was added in 1900, and relay races, with teams of four sprinters each, were added for the 1912 Games. Women's sprint events were included in 1928.

Not only have the events changed, but the format has evolved as well. Ropes were used to separate sprinting lanes. Sprinters first started races standing straight up before utilizing the crouched position. Synthetic tracks came into use in 1956.

Tracks have improved, apparel and shoes have gotten lighter and more streamlined, and as a result of these improvements coupled with new training techniques, sprinters have gotten faster.

Organized athletics are traced back to the Ancient Olympic Games from 776 BC. The rules and format of the modern events in athletics were defined in Western Europe and North America in the 19th and early 20th century, and were then spread to other parts of the world.

The athletics meeting forms the backbone of the summer Olympics. It's called the *poor man's sport* because it did not cost anything to play. But it requires rigorous training. There are three short distance races that are contested as part of

the track and field events during the Olympics, the 100m, 200m and 400m for both men and women.

The 100 m sprint is currently the most anticipated and the highest viewed event in the Olympics. The men's event has been a part of the games since the first 1896 and the women's event was added in 1928. Historically, the Americans have dominated the event, but of late, the Jamaicans have a strong hold on the event, winning the men's and women's races in the last three Olympics (2008-2016).

Usain Bolt of Jamaica, who holds the current Olympic record at 9.58 seconds and *Carl Lewis of the United States* are the two most notable athletes for the event. Bolt won the gold, three times straight (2008-2016). The current women's Olympic record is 10.62 seconds, set by glamorous Florence Griffith-Joyner of the United States in 1988 Seoul Games.

The event also has its fair share of controversies, where athletes like Ben Johnson and Marion Jones were tested positive for doping.

All important international races at 200 metres, as well as 400 metres, are run on an oval track. The starts are staggered as the lanes farther from the centre begin progressively farther forward on the track. Thus, each runner will cover an equal distance. As a result, the competitors, particularly in the 400 metres, have no exact knowledge of their respective positions until they have completed the final turn. Great stress is, therefore, placed on an athlete's ability to judge his own pace, as well as upon his speed and endurance.

Remember the famous 1960 *Rome Olympic 400 meter final*, where Milkha Singh appeared and did well when he committed the mistake to look back and see other runners. This, he became slower by split second and he lost the medal.

At the professional level, sprinters begin the race by assuming a crouching position in the starting, before driving forward and gradually moving into an upright position as the race progresses and momentum is gained. The set position differs depending on the start. The use of starting blocks allows the sprinter to perform with an enhanced isometric preloads. Body alignment is of key importance in producing the optimal amount of force. Ideally, the athlete should begin in a 4-point

#OLYMPICS



From the Enlightenment, all the way through to the present day, there has been a science around racial typology, and the belief in meaningful difference along the lines of skin colour," explains Dr. Paul Campbell, associate professor of Sociology at the University of Leicester.

stance and drive forwards, pushing off using both legs for maximum force production. Athletes remain in the same lane on the running track throughout all sprinting events, with the sole exception of the 400 meters indoors. Races up to 100 meters are largely focused upon acceleration to an athlete's maximum speed. All sprints, beyond this distance, increasingly incorporate an element of endurance.

Technological advances have always improved sprint performances (i.e., starting blocks, synthetic track material, and shoe technology). In 1924, athletes used a small shovel to dig holes to start the race. The world record in the 100-meter dash in 1924 was 10.4 seconds, while in 1948, (the first use of starting blocks) it was 10.2 seconds, and was 10.1 seconds in 1956. The constant drive for faster athletes with better technology has brought man from 10.4 seconds to 9.58 seconds in less than 100 years.

Track events were measured with the metric system except for the United Kingdom and the United



International Clouded Leopard Day

Of course, every species on earth has its own unique role to play in maintaining an overarching ecological balance, both, in life and in nature, and the clouded leopard's one that is having its place taken away. With the population decreasing, this species is considered on the 'vulnerable' list. The hope is that in some small way, raising the awareness of the plight of the clouded leopard, may somehow help this most beautiful of cats in the wild and also provide humans with a greater understanding of its needs. Welcome to International Clouded Leopard Day!

What Makes Them Win Races!

What made Usain Bolt, an era-defining champion of immense speed and consummate ease at just 23, so fast? Bolt cited his God-given talent, while crediting a diet that ranged from ultra-processed chicken nuggets (small pieces of breaded chicken) to the Jamaican staple of yams (*shakarkand*). But he also pointed to the cruelties of man. "I think, over the years, what makes Jamaica different is because of slavery really," he said of his sprinting roots. "The genes are really strong."



Sir Roger Bannister.

The theory runs that the unnatural selection of black physical prowess, centuries ago, affects podium placement as well as skin colour.

Not since British sprinter, Allan Wells, triumphed at the boycotted Moscow 1980 Games, has a white man made an Olympic or world 100m podium.

In fact, it was more than four decades after Wells' triumph that China's Su Bingtian became the next man without black parentage to even compete in an Olympic 100m final, in 2021.

During that time, black sprinters from North America and the Caribbean have claimed 24 out of 30 medals in the men's 100m at the Olympics.

But was Bolt right? Does the link between modern glory and a dark past hold true? Or are appearances deceiving?

In September 1995, Sir Roger Bannister, the first man to run a mile in less than four minutes, and an eminent neurologist, stood up to speak at a conference in Newcastle.

"As a scientist, rather than a sociologist, I am prepared to risk political incorrectness by drawing attention to the seemingly obvious but under-stressed fact that black sprinters, and black athletes, in general, all seem to have certain natural anatomical advantages," he said.

Bannister would concede that he was unable to identify what those precise advantages were. But, Bannister was correct to note the apparent correlation between race and sprint medals, and seek to explain the underlying factors, that he believed, were behind it.

The response was mixed. Some disagreed with Bannister on principle suggesting that such an argument risked slipping into the territory of the eugenics movement.

Others argued that race is a social, rather than biological, construct, and to merge diverse populations from a range of continents into one homogenous group, based on skin colour, is nonsensical. "From the Enlightenment, all the way through to the present day, there has been a science around racial typology and the belief in meaningful difference along the lines of skin colour," explains Dr. Paul Campbell, associate professor of Sociology at the University of Leicester.

"Yet, we don't look at this in any

other way. We don't look at the differences in eye colour or hair texture, despite the gap between people, in terms of basic DNA, being just as wide as skin colour."

So, why is there a fascination with continuing to try to explain meaningful racial differences? Yet, the extrapolation some have made is startling, that *slavery turned sprinters of West African descent into world beaters*.

An estimated 10 million slaves were transported by ship from Africa across the Atlantic, between the 16th and 19th centuries, with appalling conditions onboard, meaning, many never arrived at their destination.

This was combined with a rigorous physical selection process, prior to boarding the ships, and selective breeding by slave owners at the other end.

The result, it has been argued, was to create a population of West African descendants in the United States and the Caribbean, that was predisposed to athletic performance.

It was in 2003 that a group of Australian scientists first thought that they had struck genetic gold. The gene in question was *Alpha-actinin-3 (ACTN3)*, and the academics involved identified that the more copies of the R variant a person possessed, and therefore, the less of the X variant, the more likely they would excel at sprint and power disciplines.

A number of studies showed that people of West African origin were almost guaranteed to have the right variant of the so-called 'sprint gene' to run fast.

But there was a problem. Further testing found that virtually, all Olympic sprinters of every nationality and ethnicity also possessed it. So

did billions of other people. "All that ACTN3 can tell us, it seems, is who will not be competing in the (Olympic) 100m final," wrote David Epstein, in his book *"The Sports Gene"*.

"And it is not even doing a very specific job of that, given that it is only ruling out about one billion of the seven billion people on earth."

Other alternative theories for an apparent racial sprinting divide have also arisen over the years.


One disputed study by scientists, Adrian Dejan and Edward Jones, suggested that people of West African origin benefited from a higher centre of gravity than white people, providing them a 1.5% advantage over the course of a 100m race, as they were able to fall to the ground more quickly between strides.

Another built on the high prevalence of sprint-aiding fast-twitch muscle fibres, which tire easily but contract quickly among black populations. Scientist Errol Morrison and author Patrick Cooper's controversial hypothesis was that the prevalence of sickle cell trait, a mutation that causes round, red, oxygen-carrying blood cells to curl up in a sickle shape, among people of West African origin, had "triggered a series of physiological adjustments, which, incidentally, had favourable athletic consequences."

Prime among them was a higher percentage of fast-twitch muscle fibres, which are less dependent upon oxygen.

Yet, the theory was just that, a theory. No supporting data has ever been produced, and according to scientist, Yannis Pitsiladis, it is unlikely that it ever will.

rajeshsharma1049@gmail.com



#RESEARCH

Laugh more for your heart: Here's how it helps you live longer

From boosting heart health to improving relationships, here's how laughter can literally fix our lives.



Laughter has its own set of benefits. It helps in boosting mood and creating a sense of community among people. But did you know that you can dodge heart diseases by laughing more? Researchers from Yamagata University conducted a new research where they tracked 17,152 people, aged 40 or younger, and their laughing patterns. Their study says that when we laugh more, we can boost our heart health. Now, the study has pushed the Japanese government to pass a law to order the citizens of the northern province of Yamagata to laugh daily.

The study states that increasing the frequency of laughter can boost heart health and make us live longer. The benefits of laughter have been extensively



explored and studied throughout the world. A study published in the journal *Preventive Medicine* states that when older adults laugh more with their friends and family, they can alleviate the risk of developing health problems, that people in their age usually suffer from.

Laughter helps in reducing anxiety


Another study in *Nursing & Health Sciences* states that when we laugh dramatically, it can reduce cortisol, the stress hormone levels in the body and reduce anxiety. Laughter helps in activating the natural relaxation process of the body and makes us feel better. Robin Dunbar, an emeritus professor of Evolutionary Psychology at the University of Oxford studied the physiological and psychological effects of laughter for years. He stated that laughing helps in boosting mood and increasing immunity. He further added that when we belly laugh, the exertions of the rib cage help in the release of endorphins, which helps in managing pain, making us feel blissful and promoting better heart health.

Social Benefits of laughing

While laughter contributes to better health, its benefits in social behaviour are immense. Sophie Scott, a professor at UCL and the director of the Institute for Cognitive Neuroscience stated that we are more likely to laugh with someone, than just with ourselves. It helps in creating a bond and making us feel included. Laughter improves the quality of our relationships. This also makes our heart feel young and happy.



THE WALL




BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

'200 करोड़ की लागत से जे.एल.एन. में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा'

मर कर भी जिंदा रहना है तो हमें अंगदान करना चाहिए : विधानसभा अध्यक्ष देवनानी

जयपुर/अजमेर, (कास)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मर कर भी जिंदा रहना है तो हमें अंगदान करना चाहिए। आज देश में हृदय, लीवर, किडनी और आंखों सहित अन्य अंगों की वास्तविक मांग के मुकाबले उपलब्धता बहुत कम है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जिस तरह रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उसी तरह अंगदान का महत्व भी आमजन को समझना होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर के राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अंगदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि समाज को अंगदान के प्रति सोच को बदलना होगा, जिस तरह रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है, आमजन स्वप्रेरित होकर रक्तदान कर रहा है। उसी तरह हमें अंगदान को भी ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करना होगा। एक व्यक्ति स्वयं तो अंगदान का संकल्प ले ही रहा है, साथ ही दूसरों को भी अंगदान के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर हार्ट, लीवर, किडनी, आंखें, पैनक्रियाज व अन्य अंगों की मांग काफी ज्यादा है, जबकि उपलब्धता बहुत सीमित। प्रति वर्ष दो लाख किडनियों की आवश्यकता होती है।



विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में स्पीकर हैल्प डेक्स का शुभारम्भ किया।

इनकी तुलना में महज वर्ष 2022 में 11522 किडनी ही जरूरतमंदों को उपलब्ध हो सकी। इसी तरह 30 से 50 हजार हार्ट और लीवर की मांग की तुलना में उपलब्धता बहुत सीमित है। अंगदान को लेकर आमजन में कई तरह की भ्रांतियां हैं, हमें इन भ्रांतियों को दूर करना होगा। तेलंगाणा, तमिलनाडु और कई राज्यों में अंगदान का प्रतिशत बहुत अच्छा है। राजस्थान को भी इस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अंगदान

की विधिक प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसे सरल बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अजमेर शहर, आने वाले समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। यहां कई सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 200 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। टीबी अस्पताल वाली जगह पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया जाएगा। इसे आधुनिकतम सुविधाओं

से लैस किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बार राज्य बजट में अजमेर को सरकार ने बहुत ही सौगातें दी हैं। अजमेर को बजट में करीब 1500 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अजमेर में पेयजल, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स कॉलेज, आईटी पार्क, सैटेलाइट अस्पताल, सड़क विकास और ऐसी ही सुविधाओं पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पूर्व में जेएलएन अस्पताल में कैथ लैब, कॉडियोलॉजी,

विधानसभा अध्यक्ष ने "एक पैड़ मां के नाम" अभियान की भी शुरुआत की

यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलांजी और ऐसी ही कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। देवनानी ने कहा कि अस्पताल में पाकिंग, शिशुरोग विभाग और मेडिसिन विभाग की नई बिल्डिंग का भी जल्द शुभारम्भ किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में स्पीकर हैल्प डेक्स का भी शुभारम्भ किया। यह हैल्प डेक्स प्रतिदिन अस्पताल में आने वाले हजारों मरीजों और उनके परिजनों को मार्गदर्शन का काम करेगा। यहां आने वाले प्रत्येक मरीज व परिजनों को उसके रोग के अनुसार विभाग व ओपीडी में जाने की सलाह दी जाएगी। हैल्प डेक्स पर 24 घंटे कर्मचारी व अधिकारी तैनात रहेंगे। जो पछताछ के लिए आने वालों को डॉक्टर, दवा व जांच से संबंधित सलाह देंगे। अस्पताल में एक नई लैब का शुभारम्भ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने एक पैड़ मां के नाम की भी शुरुआत की। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया एवं अधीक्षक डॉ. अरविन्द खरे भी उपस्थित रहे।

फायरिंग के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

50 हजार का इनामी एक साल से फरार चल रहा था



बबाई पुलिस ने फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया।

खेतड़ी, (निर्स)। बबाई पुलिस ने अलसुबह फायरिंग के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले एक साल से फरार चल रहा था, जिस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

थानाधिकारी सरदारमल यादव ने बताया कि 10 अगस्त 2023 को परिवार ने रिपोर्ट दी कि रात को उसके घर पर छह-सात लड़के आए। इस दौरान घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने लगे। उनमें एक युवक हरदिया निवासी संदीप कृष्णिया था, जिसको वह पहले से जानता था। इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। जब उसने शोर-शराबा किया तो परिवार के लोग आए तो आरोपी हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। इस दौरान आरोपी भागते समय बाइक भी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान

आरोपी से वारदात में काम में लिए हथियारों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है

थाने में फायरिंग सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद एसपी प्रवीण कुमार नायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।

मामले को लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर संदीप कृष्णिया, मुकेश जाट, सुशील, मानसिंह, अनिल कुमार, प्रदीप कुमार, संदीप उर्फ सुखा शूटर को पहले गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वारदात का आरोपी महेश उर्फ

कुंभाकाला फरार चल रहा था। आरोपी ने थोड़ी थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने को लेकर श्रीमाधोपुर, उदयपुरवाटी, कालोटा, नीमकाथाना क्षेत्र में दबिश दी गई।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर छापी कुंभाकाला तन पुराना बांस निवासी महेश कुंभाकाला पुत्र रिछपाल जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पछताछ की जा रही है तथा वारदात में काम में लिए हथियारों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस दौरान टीम में थानाधिकारी सरदारमल यादव, एसएसआई राजकुमार, कांस्टेबल जसवंत सिंह, दलीप सिंह आदि शामिल थे।

चूरू में बारिश के बाद शहर के निचले इलाके जलमग्न

बारिश के बाद जमा कीचड़ आमजन के लिए परेशानी का सबब बना

चूरू, (कास)। नगर परिषद की लापरवाही के कारण शहर में बारिश के बाद शनिवार को चारों ओर कीचड़ व गंदगी का अंबार देखने को मिला।

जानकारी के अनुसार पुराना बस अड्डा जहां से दिनभर में सैकड़ों बसें गांवों

- पुराना बस अड्डा कीचड़ व गंदगी से सराबोर, शहर के रास्ते बारिश के पानी से जाम
- मानसून के आने से पूर्व नहीं होते साफ-सफाई के माकूल इंतजाम

में आती व जाती रहती है। वहां पर रोज हजारों सवारियों का आवागमन होता है। वहां पर चारों ओर कीचड़ इस कदर फैला हुआ है कि पैदल चल पाना मुश्किल हो रहा है। शहर के निचले इलाके बारिश के पानी से पूरी तरह भरे हुए हैं। जहां पर लोगों का अपने घरों से बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है। बारिश का पानी नालियों से होकर सड़क पर गलियों में भर जाता है। जिसके कारण आमजन को काफी परेशानी हो रही है।



चूरू के पुराना बस स्टैंड पर बारिश के बाद जमा कीचड़ से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

यहां पर पिछले करीब चार दिन से रुक-रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। कभी तेज तो कभी धीमी गति से बारिश हो रही है, जिसके कारण चारों ओर शहर में बारिश का पानी और पानी निकासी के अभाव में कीचड़ ही कीचड़ दिखाई

देने लग गया है। शहर के मुख्य बाजार सहित अनेक निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश आने के कई दिनों तक पानी की निकासी नहीं होने से लोगों की दुकानें मजबूर बंद रहती हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी

प्रभावित होती है। बारिश के कारण यहां के आवासन मंडल की मुख्य सड़क आवासन मंडल कार्यालय में टूटकर बह गई। जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

डिस्कॉमकर्मियों की मौत

भीलवाड़ा, (निर्स)। भीलवाड़ा-शाहपुरा मार्ग पर बीती रात टैपो की टक्कर से बाइक सवार डिस्कॉमकर्मियों की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मंडल चौकी पुलिस के अनुसार मालीखेड़ा, चमनपुरा निवासी सुरेश सिंह (30) पुत्र बंशी दरोगा, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनेड़ा में कार्यरत था। सुरेश सिंह बीती रात बनेड़ा से बाइक पर अपने गांव जा रहा था। कमालपुरा के पास मोड़ पर एक टैपो ने सुरेश की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सुरेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया।

शिक्षक ने छात्र के साथ मारपीट की

सीकर, (निर्स)। शिक्षक द्वारा छात्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। सीकर विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्वनरत छात्र जतिन बोरण के साथ स्कूल के अध्यापक कमल खोकर द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत छात्र के पिता महेश कुमार बोरण ने उद्योग नगर थाने में दी है। शिकायत में छात्र के पिता ने शिक्षक कमल खोकर पर आरोप लगाया कि दो अगस्त को साइंस के अध्यापक कमल खोकर ने कक्षा में आते ही जतिन से कॉपी

दिखाने के साथ गाली-गलौच करते हुए बाल पकड़कर थपथप मारना शुरू कर दिया तथा पीट पर भी मुक्के से मारपीट की। घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताने पर साइंस में फेल करने की धमकी दी गई। शिकायत में महेश बोरण ने बताया कि उक्त घटना के बाद बच्चा इतना भयभीत हो गया कि स्कूल जाने से भी इंकार करने लग गया। उद्योग नगर थाने में दी गई शिकायत पर शिक्षक कमल खोकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

स्मैक सहित एक गिरफ्तार

गंगापुर सिटी, (निर्स)। वजीरपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वजीरपुर थानाधिकारी विजयसिंह छोकर ने बताया कि वजीरपुर में गश्त के दौरान नाकाबंदी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति खेदला मोड़ की तरफ पैदल आ रहा है। संदिग्ध स्थिति होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को रोककर उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम जयसिंह पुत्र धरमसिंह मीणा निवासी मोना बड़ौदा थाना वजीरपुर का होना बताया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे में 3.80 ग्राम स्मैक मिली।

गुटखा खाने से टोका तो चार लड़कों ने सुरक्षाकर्मियों पर चाकू से हमला किया

कोटा, (निर्स)। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल परिसर के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक (एसएसबी) में तीन सुरक्षा कर्मियों को कुछ लड़कों को गुटखा खाने से रोकना महंगा पड़ गया। बदमाश लड़कों ने सुरक्षाकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया। इससे एक सुरक्षाकर्मियों की हालत गंभीर है। जबकि दो अन्य चोटिल हुए हैं। मामला शनिवार सुबह का है। घटना के बाद महावीर नगर थाना व मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल परिसर स्थित पुलिस चौकी का जापना मौके पर पहुंचा। घायलों को नए

सुरक्षाकर्मियों ने चार लड़कों का गुटखा खाकर अंदर जाने से रोका था, सुरक्षाकर्मियों की हालत गंभीर है जबकि दो अन्य चोटिल हुए हैं

अस्पताल की इमरजेंसी में उपचार के लिए ले जाया गया। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक (एसएसबी) के सिक्योरिटी इंचार्ज रेखसिंह का कहना है कि शनिवार सुबह 6.30 से 6.45 के बीच घटना है। एसएसबी के गेट पर रामकरण नामक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहा था। इस दौरान चार लड़के बाहर बैठकर गुटखा

खा रहे थे उसने इन्हें गुटखा खाकर अंदर जाने से रोका था। इससे नाराज होकर चारों लड़कों ने गार्ड रामकरण पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उसकी चीखने की आवाज सुनकर दूसरे सिक्योरिटी गार्ड शिव सिंह और सुरेंद्र भी मौके पर पहुंचे। बदमाश लड़कों ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद चारों वहां से भाग गए। सिक्योरिटी इंचार्ज रेख सिंह ने

बताया कि इलाज के लिए इन्हें नए अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर गए। वहां रामकरण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अभी ये पता नहीं चला है कि ये लड़के किसी मरीज के साथ आए थे या ऐसे ही बार बैठे हुए थे। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की अधीक्षक डॉ. आरपी मीणा ने सुरक्षा कर्मियों के उपचार की तुरंत व्यवस्था करवाई। उनका कहना है कि एक गार्ड के छाती में चाकू लगे हैं। उसकी हालत गंभीर है। दूसरी तरफ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अधीक्षक डॉ. नीलेश जैन भी मौके पर पहुंच गए।

अतिक्रमण हटाने के दौरान हरे पेड़ को जेसीबी से उखाड़ा



प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर हरे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया।

चौमू/कालाडैरा, (निर्स)। एक पैड़ मां के नाम अभियान, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहल पर राज्य सरकार चल रहा है। वहीं चौमू उपखण्ड के गांव कालाडैरा में शुक्रवार को तहसील प्रशासन के माध्यम से सम्पूर्ण हरे पेड़ को अतिक्रमण हटाने के नाम पर जड़ से उखाड़ दिया गया। जांचकारी के अनुसार किसी ने शिकायत की कि कालाडैरा कस्बे से

सांदरसर जाने वाली सड़क के दोनों ओर नदी नाले में अतिक्रमण किया हुआ है। उस अतिक्रमण को नायब तहसीलदार भागीरथ यादव व कालाडैरा पटवार मण्डल के पटवारी विकास यादव व गिरदावर की उपस्थिति में कालाडैरा थाने के पुलिस जापते के साथ आया और अतिक्रमण हटा दिया।

अतिक्रमण हटाने के नाम पर हरे

पेड़ को जेसीबी से जड़ से उखाड़ दिया। जांचकारी के अनुसार इसके अलावा भी सम्पूर्ण नदी में अतिक्रमण किया हुआ है जिसकी कई बार प्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई पर प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। केवल एक जगह ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर अतिश्री कर ली, जबकि कालाडैरा कस्बे के सम्पूर्ण नदी क्षेत्र अतिक्रमण की भेट चढ़ा हुआ है।

अवैध रूप से चल रही निजी लेबोरेटरी पर चिकित्सा विभाग की कार्रवाई

अनियमितता मिलने पर तीन लेब संचालकों को नोटिस, बिना रजिस्ट्रेशन चल रही है लेब

खेतड़ी, (निर्स)। खेतड़ी क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही लेबोरेटरी पर शनिवार को चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान तीन लेबोरेटरी पर अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी किए गए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यदि सात दिन में निरीक्षण के दौरान मिली कमियों में सुधार नहीं किया गया तो चिकित्सा विभाग की ओर से सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। बीसीएमओ डॉ. हरीश यादव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से लेबोरेटरी का संचालन करने को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर रखा है। इसके बावजूद भी कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन के लेबोरेटरी का संचालन कर रहे हैं जो सरकार के नियमों के खिलाफ है। सरकार की ओर से पूर्व में भी निर्देश जारी कर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी भी लेबोरेटरी संचालक ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तथा घड़ल्ले से लैब का संचालन कर रहे हैं।

निजी लेबोरेटरी संचालकों की ओर से जांच के नाम पर की जा रही



चिकित्सा विभाग टीम ने खेतड़ी क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही लेबोरेटरी पर कार्रवाई की।

मनमानी को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार रजिस्ट्रेशन करवाने तथा बिना रजिस्ट्रेशन चल रही लेबोरेटरी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे,

जिस पर संबंधित ब्लॉक में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा निजी लेबोरेटरी की जांच की जाएगी। इस दौरान कोई भी अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी

किया जाएगा। यदि सात दिन में अनियमितता को दूर नहीं किया गया तो लेबोरेटरी को सीज कर दिया जाएगा। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा गोटड़ा पीएचसी व खेतड़ीनगर में चल

'सात दिन में अनियमितता को दूर नहीं किया गया तो लेबोरेटरी को सीज कर दिया जाएगा'

रहीविनायक, शारूण व करूणा लेबोरेटरी की जांच की गई। इस दौरान रजिस्ट्रेशन व अन्य अनियमितता पाए जाने पर तीनों लेबोरेटरी संचालक को नोटिस जारी किए गए हैं। बीसीएमओ डॉ. यादव ने हिदायत दी कि यदि सात दिन में अनियमितता दूर नहीं की तो लेबोरेटरी को सीज किया जाएगा। चिकित्सा विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण से खेतड़ी ब्लॉक के निजी लेबोरेटरी संचालकों में हड़कंप मच गया। फिलहाल खेतड़ी ब्लॉक में 20 से अधिक लेब बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इस दौरान टीम में बीसीएमओ डॉ. हरीश यादव, आरआरटी प्रभारी डॉ. महेंद्र सैनी आदि शामिल थे।

संक्षिप्त

समाजसेवी महावीर सिंह तहसील अध्यक्ष

श्रीमाधोपुर, (निर्स)। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मऊ निवासी समाजसेवी महावीर सिंह शेखावत को मऊ तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय करणी सेना की कार्यकारी का विस्तार किया गया राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिवसिंह शेखावत के निर्देशानुसार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम सिंह सुदराशन के द्वारा श्रीमाधोपुर तहसील का विस्तार करते हुए महावीर सिंह शेखावत मऊ को श्रीमाधोपुर तहसील अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक त्रिलोक सिंह सानिया, सलाहकार सदस्य कुशल सिंह राठौड, नीमकाथाना जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह गणेश्वर, नीमकाथाना जिला उपाध्यक्ष भगत सिंह मऊ, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह कुमाश, जयपाल सिंह शेखावत, बलवंत सिंह शेखावत, विजेंद्र सिंह शेखावत, सुबराज सिंह शेखावत मऊ व करनी सैनिक उपस्थित थे।

जलाशयों में पानी की आवक जारी

बौली-बामनवास, (निर्स)। क्षेत्र में चल रहे सक्रिय मानसून के दौर में हुई अच्छी वर्षा से करीब-करीब सभी जलाशयों में पानी की आवक जारी है एवं क्षेत्र से गुजर रही मोरेल, बनास एवं ढोल नदियों में भी पानी बदस्तूर चल रहा है। बौली उपखंड मुख्यालय की सीमा में स्थित वर्षाकालीन पर्यटक स्थल ढोल डैम पर शनिवार को 16 फीट की भराव क्षमता पूर्ण होने के बाद फाट चलने लगी है। बौली नगर के खारिला छोटा बांध पूरा भर चुका है एवं नागोलाव बांध में करीब 8 फीट पानी आ चुका है इस बांध की भराव क्षमता 10 फीट है। एशिया के सबसे बड़े कच्चे बांधों में सुमार मोरेल डैम में करीब 20 फीट पानी आ चुका है। इसकी भराव क्षमता करीब 32 फीट है। क्षेत्र के छोटे बड़े सभी तालाव व एनीकट करीब करीब पूरे भर चुके हैं एवं नदियों व निगोह में पानी की आवक जारी है। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित जगमढ़ किले, गुणेश्वर मलंग दास जी बाबा की गुफा सहित अन्य झरने काल कर बहने लगे हैं इससे नगर वासियों में हर्ष की लहर छाई हुई है।

शपथ ग्रहण समारोह आज

राजगढ़, (निर्स)। लार्यंस क्लब की नवीन कार्यकारीणी का शपथ ग्रहण समारोह 4 जुलाई को साय 7 बजे टहला बाईपास पर निजी गार्डन में होगा। कार्यक्रम की संयोजक जिनेंद्र जैन ने बताया कि इसका रिर् के मुख्य अतिथि सुनील अरोडा प्रांत पाल, शपथ ग्रहण अधिकारी अशोक टाकुर पूर्व प्रांत पाल, मुख्य वक्ता, गिरीश गुप्ता रीजन चेरयरपत्तन, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया सहित अन्य अतिथि होंगे।

करंट लगने से 6 बकरियों की मौत

कोटपूतली, (निर्स)। क्षेत्र के ग्राम अलीपुर कला में शनिवार दोपहर बाद बालाजी मंदिर के पास करंट लगने से 6 बकरियों की मृत्यु हो गई। ग्रामीण लीलू मीणा ने जानकारी देते हुये बताया कि ग्रामीण सुरेश बाबरिया के घर अचानक करंट आ गया, जिससे यह घटना हुई। इस दौरान वहाँ सड़क पर भरे पानी में भी करंट आ रहा था। गनीमत यह रही कि घटना के वक्त कोई भी व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था। जिससे बड़ी घटना होने से टल गई।

बगड़ावत गोठ गायन आज

निवाड़ी, (निर्स)। रिवार को हरियाली अमावस्या पर गांव बस्सी घाटा में स्थित भेरुजी महाराज के बगड़ावत गोठ गायन का आयोजन होगा। शोभाभंग प्रजापत ने बताया कि रिवार को बगड़ावत दोपहर गोठगायन का आयोजन होगा जिसमें आसपास के कलाकार गोठ गायन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में बस्सी, बरेडा, खिडगी, किवाडा, गोवर्धनपुर, मंडालिया, सिरस, खेडीमानपुर व खेडा सहित आसपास के गांवों के कलाकार व श्रद्धालु शामिल होंगे।

विभिन्न सेवा कार्य आज होंगे

कोटपूतली, (निर्स)। ग्राम चिमनपुरा निवासी समाजसेविका स्व. श्रीमती संजू रावत की तृतीय पुण्यतिथि पर रिवार को विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया जायेगा। युवा कांग्रेस के पूर्व विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष राकेश रावत ने बताया कि इस मौके पर ग्राम चिमनपुरा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही कस्बा स्थित राजकीय बोर्डिंग जिला अस्पताल में प्रसाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने के बाद जीवनदाता ब्लड बैंक में रक्तदान किया जायेगा।

इंदिरा कॉलोनी में घुसा बारिश का पानी, नहीं हो रहा समाधान

सांभरझील, (निर्स)। सांभर की इंदिरा कॉलोनी में हर साल जमा होने वाला बारिश का पानी यहाँ के लोगों की लिए आज भी परेशानी का कारण बना हुआ है। 20 साल से हर बारिश के मौसम में यहाँ के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नगरपालिका, तक की लिख लिख कर दिया जाता है, न तो सरकार और न ही प्रशासन दो दशक से इस मसले को गंभीरता से ले रहा है।

यह बताया जरूरी है कि यहाँ जितने भी परिवार रहते हैं उनमें से अधिकतर दलित, पिछड़े गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि उनकी पहुँच आगे तक नहीं होने से विधायक, सांसद और न ही लोकल जन्मनिधि उनकी सुनते हैं। यहाँ के तीन दफा पार्षद रह चुके हीरालाल तंवर व वाल्मीकि समाज के अनेक लोग आज भी उनकी पीडा से दुखी हैं। समस्या के समाधान को लेकर वाल्मीकि



सांभर की इंदिरा कॉलोनी में बारिश का पानी यहाँ के लोगों की लिए आज भी परेशानी का कारण बना हुआ है।

शिव मंदिर में आसपास की गंदगी और मलबा भी चला गया

पर चढकर जान दे देंगे। इसी मामले में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अध्यक्ष वकील सुनील शर्मा, सचिव हीरालाल तंवर के संयुक्त नेतृत्व में समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इधर एसडीएम के आदेश के बाद नगर पालिका ने पंप सेट लगाकर बारिश के भरे पानी को निकालने का काम शुरू किया है। बारिश का पानी इतना अत्यधिक भर गया कि आसपास की सारी गंदगी कॉलोनी में जमा हो गई और शिव मंदिर में गंदगी और मलबा तक चला गया। हर साल लोगों की भावना आहत होती है लेकिन प्रशासन इससे पूरी तरह अनजान बना हुआ है।

कुछ दिनों में शौच समस्या का समाधान नहीं करवाया गया तो टंकी

मादक पदार्थ जब, एक गिरफ्तार

गंगापुर सिटी, (निर्स)। वजीरपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्मैक जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के द्वारा अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजौरा और गंगापुर सिटी पुलिस उपाधीक्षक अरविंद कुमार के निर्देशन में वजीरपुर थानाधिकारी विजयसिंह छोंकर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वजीरपुर थानाधिकारी विजयसिंह छोंकर ने बताया कि वजीरपुर में गश्त के दौरान नाकाबंदी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति खेडला मोड की तरफ पैदल आ रहा है। पुलिस टीम को देख उक्त व्यक्ति वापस जाने लगा। साथ ही संदिग्ध स्थिति होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को रोक कर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जयसिंह पुत्र धर्मसिंह मीणा निवासी मीना बडीला थाना वजीरपुर का होना बताया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे में 3.8 ग्राम स्मैक मिली। इसकी बाजार कीमत करीब 15 हजार रुपए थी।

सार-समाचार भागवत ज्ञानयज्ञ पोस्टर का विमोचन



श्रीमाधोपुर, (निर्स)। कस्बे के नंद महल मैरिज गार्डन बाईपास तीरहा श्रीमाधोपुर में आगामी 23 अगस्त शुक्रवार से होने वाली संगीतमय श्रीपद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। विशाल बोहरा व श्याम सुंदर ने बताया कि नंदकिशोर बोहरा परिवार एवं भक्तजनों की ओर से आयोजित किया जा रहे हैं। कार्यक्रम के पोस्टर का जगह-जगह विमोचन किया गया। कृष्ण कुमार व श्री राम ने बताया कि कार्यक्रम में रेवासा धाम वाले वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री कथा सुनाएंगे वही 23 अगस्त को प्रातः 9.15 बजे भव्य मंगल कलश यात्रा शाही लवाजमे के साथ श्री गोपीनाथ जी मंदिर श्रीमाधोपुर से नंद महल मैरिज गार्डन श्रीमाधोपुर तक निकाली जाएगी। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में उमेश चूलेट, दिलीप शर्मा, रवि शर्मा व अन्य युवा, महिलाएं, युवतियां उपस्थित थीं।

अभिषेक कर सजाई महादेव की झांकी



फुलेरा, (निर्स)। कस्बे के निकटवर्ती फुलेरा-विचूर सड़क मार्ग स्थित दादूदयाल आश्रम पंचमुखी हनुमान मन्दिर टांका पर शनिवार को तपस्वी संत गोविन्द दास महाराज के सानिध्य में आग्नेय महादेव मन्दिर पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद पुष्प मालाओं से महादेव की अनुपम झांकी भी सजाकर महाआरती की गई। वहाँ आश्रम पर पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान संत महाराज ने कहा कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पौधा रोपण जरूरी है। इसी क्रम में आगे बताया कि यहाँ आश्रम पर पिछले 10-15 वर्षों में सैकड़ों पौधे लगाकर उनकी निर्मात देखभाल की जा रही है। जिसमें से कुछ तो आज पेड़ बन गए हैं। इसके साथ ही आगे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही उसके पेड़ बनने तक समुचित देखभाल कर संरक्षण भी करना चाहिए। इस अवसर पर समाजसेवी एवं धर्मप्रेमी वैद्यकाश परीक, छोट्टे सिंघवा, गोपाल पुजारी, रोहित, धर्मप्रेमी सुरेश चौधरी पायल, राकेश गुर्जर, बोदूराम गुर्जर सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे।

चोरी की वास्तव का अंजाम दिया

दूदू, (निर्स)। जिले के अधीन पडासोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित ज्वेलर्स की दुकान पर शुक्रवार की रात को चोरों के गिरोह द्वारा शटर तोड़े जाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया तथा वहाँ रखे सोने चांदी के पुराने आभूषण चुराकर ले गए। दुकान मालिक विरदी चन्द ने दूदू थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा अज्ञात कराया की शनिवार की सुबह दुकान आया तो शटर के ताले टूटे हुए पड़े थे तथा अलमारी में रखा सामान जिसमें पुरानी चांदी सोने की अंगुठियां पर बालियां नहीं मिली बस सामान बिखरा पडा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर तलाश शुरू कर दी।

अग्रवाल समाज समिति के चुनाव आज

कोटपूतली, (निर्स)। अग्रवाल समाज समिति कोटपूतली के निर्वाचन 2024 के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री पद के चुनाव हेतु मतदान अग्रसेन भवन में प्रातः 8 से दोपहर 3 बजे तक होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि मतदान हेतु 5 मतदान बूथ बनाये गये हैं। मतदाता मतदान के लिये फोटो युक्त पहचान पत्र (मूल) आवश्यक रूप से साथ लावें। मतदान के बाद मतगणना दोपहर 03.30 बजे से प्रारम्भ होगी। जिसके तुरन्त बाद विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जावेगी।

गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन

राजगढ़, (निर्स)। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इकाई की ओर से कल्पना चावला गर्ल्स कॉलेज में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलवर विभाग से संयोजक डॉ. आंचल मीणा ने गुरु शिष्य परंपरा को पुरातन संस्कृति का प्रतीक बताते हुए गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। निदेशक दस नेहरू कॉलेज गुरु वंदन के लिए गुरु पूर्णिमा को बेहतर अवसर बताया। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने गुरु की महत्त्व पर प्रकाश डालते गुरु की महिमा का विस्तार सेवर्णन किया। कार्यक्रम का संचालन हेमराज वर्मा ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. अर्चना यादव, डॉ. सावित्री सिंह, शिवकुमार शर्मा एवं भगवान सहाय सहित अन्य मौजूद रहे।

अवैध रूप से शराब बेचने वाला गिरफ्तार

पहाडी (निर्स)। ऑनलाइन टर्गी के करोबारी को अवैध रूप से शराब बेचने वाले को लम्बे समय बाद पुलिस ने शनिवार को आंबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घाटमीका के ठेकका बास निवासी अमर मोहम्मद पुत्र फतेह मोहम्मद को 54 ए आंबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। गौततलव है की पुलिस ने वर्ष 2022 को गश्त के दौरान पुलिस को घाटमीका की तरफ से आते हुई एक कार को चैक किया था। उसमें टर्गी करने वाले को उपकरण मोबाइल व सीम आदि बेचने वाले घोषीर निवासी सन्जी को गिरफ्तार किया गया था।

डॉक्टर दम्पति से मारपीट व गाड़ी के शीशे तोड़ने के आरोपी गिरफ्तार

फुलेरा, (निर्स)। जयपुर ठामणी पुलिस अधीक्षक शान्तनु कुमार सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि वांछित व जानकारी आरोपियों की धरपकड़ एवं प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) डॉ. हरिप्रसाद सोमानी के सुपरविजन व वृताधिकारी सांभरलेक सारिका खण्डलवाल के निर्देशन एवं फुलेरा थानाधिकारी बाबूलाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई।



फुलेरा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।

दो युवकों ने मेरी गाड़ी का पीछा करते हुए मेरी गाड़ी के आगे अपनी स्विफ्ट गाड़ी लगा दी। इसके बाद मेरे साथ मारपीट की साथ ही मेरी गाड़ी स्विफ्ट के शीशे भी तोड़कर भाग गये। पुलिस ने उक्त मामला दर्ज करते हुए अज्ञात वाहन व अज्ञात मुल्जिमों की तलाश शुरू कर दी गयी। इसके चलते गठित टीम ने आसूचना संकलन कर घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट वाहन के सीसीटीवी फुटेज खगलें व मुखबरीर खास मामूर कर घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों खेताराम पुत्र गोपाल राम जाति जाट उम्र 24 वर्ष निवासी चौसला थाना क्षेत्र नांवा व शंकर लाल पुत्र दानाराम जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी त्योदा थाना क्षेत्र सांभरलेक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट को भी जब्त किया गया।

वहीं आगे बताया कि 27 जुलाई को परिवारी ने थाने पर मामला दर्ज कराया कि मैं अपने परिवार के साथ ससुराल से कुचामन सिटी से जयपुर जा रहा था। इसी बीच फुलेरा थाना क्षेत्र की स्टेट हाईवे पर स्थित एक होटल के पास

भारतीय अंगदान दिवस पर किया जागरूक, दिलाई शपथ

पावटा/कोटपूतली, (निर्स)। भारतीय अंगदान दिवस पर कोटपूतली-बहरोड सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत के निर्देश पर जिले के उप जिला अस्पताल पावटा पर कार्यक्रम का आयोजन कर आमजन को शपथ दिलाई गई।



उप जिला अस्पताल पावटा पर आमजन को शपथ दिलाई गई।

शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा पर भारतीय अंगदान दिवस का आयोजन कर आमजन को शपथ दिलाई। डॉ. संतोष वर्मा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा पर आमजन को अंगदान के बारे में जानकारी देते हुए इसके महत्व के बारे में बताया गया कि अंगदान करने वाला एक व्यक्ति कम से कम सात लोगों की जान बचा सकता है।

अंग विफलता से पीडित लोगों के लिए आशा की किरण है। रविकॉन्त जांगिड जिला नोडल अधिकारी द्वारा आमजन को अंगदान दिवस पर शपथ दिलाई गई। किसी भी भयान या धर्म ने यह नहीं कहा है कि अंगदान नहीं किया जाना चाहिए। अंगदान से मृत्यु के बाद भी जीवन बचाया जा सकता है। समाज में अंगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए- केंद्र सरकार की ओर से नया कदम उठाया गया है। प्रत्येक तीन अंगदान की भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

गरीब व जरूरतमंद को न्याय देना न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य ध्येय : सुमरथ लाल

कोटपूतली, (निर्स)। यहाँ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में एडीजे क्रम 01 सुमरथ लाल मीणा का राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा स्थानान्तरण कर हिण्डौन लगाये जाने एवं हिण्डौन से एडीजे राजेश कुमार का स्थानान्तरण यहाँ किये जाने पर अभिभाषक संघ कोटपूतली द्वारा न्यायालय परिसर स्थित सभागार में समारोह आयोजित कर एडीजे मीणा को भावभीनी विदाई दी गई।



एडीजे सुमरथ लाल मीणा को हिण्डौन लगाये जाने एवं हिण्डौन से एडीजे राजेश कुमार का स्थानान्तरण यहाँ किये जाने पर सभागार में समारोह आयोजित किया गया।

वहीं एडीजे राजेश कुमार का स्वागत किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये एडीजे मीणा ने यहाँ के अपने अनुभवों को साझा करते हुये बैंच के अन्य न्यायाधीशों समेत स्टॉफ सदस्यों व अधिकवक्ताओं का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में न्यायिक प्रक्रिया बेहद कठिन व महंगी हो चली है। गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय दिया जाना ही न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य ध्येय है।

एसे में बार व बैंच आपसी सामंजस्य से न्यायिक प्रक्रिया को सरल व सुलभ बनाने का कार्य करें। एडीजे राजेश कुमार ने भी सभी को

‘बार व बैंच आपसी सामंजस्य से न्याय को सरल बनाने का कार्य करें’

एडीजे सुमरथ लाल का विदाई एवं एडीजे राजेश कुमार का स्वागत समारोह

गया। वहीं एडीजे मीणा को बार की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस मौके पर एडीजे क्रम एक राजेश कुमार ने कार्यभार भी ग्रहण किया। संघ के अध्यक्ष एड. दयाराम गुर्जर ने बार व बैंच के आपसी सहयोग बनाये रखने की बात कही। इस दौरान एडीजे क्रम 04 सुरेश कुमार, एसीजेएम डॉ. अजय कुमार विश्रॉई व सरिता यादव, एमजेएम निमरन कौर ने भी विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सुशील यादव, सचिव हेमंत शर्मा, ज्योति शर्मा, जितेंद्र रावत, सागरमल शर्मा, राजेंद्र चौधरी, राजेश चौधरी, भोजराज यादव, सत्यवीर पायला समेत बड़ी संख्या में अधिकवक्तगण मौजूद थे।

COLLEGE OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Maharana Pratap University of Agriculture and Technology UDAIPUR - 313001 (Rajasthan)
No.: CTAE/ACcts/Tender/2024/3404 Date: 31-07-2024
NOTICE INVITING e-TENDERS
Single stage, unconditional bids for supply of various Hostel mess Services are invited through online bid submission to <https://eproc.rajasthan.gov.in>; and Electric maintenance services are invited through bid submission in hard copy. The last date of bid submission is up to 4:00 PM of 03-09-2024. The Bids can also be downloaded from the websites www.mput.ac.in or <http://sppp.rajasthan.gov.in>. In future any corrigendum related to the bids will be available on the above websites only.
UBN:ATU2425SLRC00117 to 119 and ATU2425SSRC00116 DEAN, CTAE

उत्तर पश्चिम रेलवे		टेंकों की ई-ऑक्शन सूचना																																					
संख्या: जी.450/एनएफआर/ई-ऑक्शन/2024, दिनांक: 02.08.2024																																							
1	कार्य का नाम	जयपुर मंडल के विभिन्न श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर केटरिंग सुविधा, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, शिक्षण, पार्किंग, एएसएलआर लीजिंग, से एण्ड यूज, एटीएम एवं विविध प्रकार के ठेकों हेतु ई-ऑक्शन।																																					
2	कार्य की अवधि	1. पार्किंग : 03 वर्ष 2. एएसएलआर लीजिंग : 02 वर्ष 3. से एण्ड यूज : 03 वर्ष 4. केटरिंग : 05 वर्ष 5. प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र : 03 वर्ष 6. विविध प्रकार के ठेके : 03 व 05 वर्ष 7. शिक्षण संबंधी ठेके : 03 वर्ष 8. एटीएम : 05 वर्ष																																					
3	लॉट के ई-ऑक्शन के प्राथम की तिथि एवं समय	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम</th> <th>लॉट का नाम</th> <th>ई-ऑक्शन की तिथि</th> <th>समय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>पार्किंग</td> <td>09.08.2024</td> <td>11:15</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>एएसएलआर लीजिंग</td> <td>14.08.2024</td> <td>11:15</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>से एण्ड यूज</td> <td>09.08.2024</td> <td>11:15</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>केटरिंग सुविधा</td> <td>20.08.2024</td> <td>11:15</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र</td> <td>20.08.2024</td> <td>11:15</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>विविध प्रकार के ठेके</td> <td>20.08.2024</td> <td>11:15</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>शिक्षण संबंधी ठेके</td> <td>20.08.2024</td> <td>11:15</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>एटीएम</td> <td>20.08.2024</td> <td>11:15</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम	लॉट का नाम	ई-ऑक्शन की तिथि	समय	1.	पार्किंग	09.08.2024	11:15	2.	एएसएलआर लीजिंग	14.08.2024	11:15	3.	से एण्ड यूज	09.08.2024	11:15	4.	केटरिंग सुविधा	20.08.2024	11:15	5.	प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र	20.08.2024	11:15	6.	विविध प्रकार के ठेके	20.08.2024	11:15	7.	शिक्षण संबंधी ठेके	20.08.2024	11:15	8.	एटीएम	20.08.2024	11:15	
क्रम	लॉट का नाम	ई-ऑक्शन की तिथि	समय																																				
1.	पार्किंग	09.08.2024	11:15																																				
2.	एएसएलआर लीजिंग	14.08.2024	11:15																																				
3.	से एण्ड यूज	09.08.2024	11:15																																				
4.	केटरिंग सुविधा	20.08.2024	11:15																																				
5.	प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र	20.08.2024	11:15																																				
6.	विविध प्रकार के ठेके	20.08.2024	11:15																																				
7.	शिक्षण संबंधी ठेके	20.08.2024	11:15																																				
8.	एटीएम	20.08.2024	11:15																																				

वेबसाइट जहाँ से लॉट बाइड ई-ऑक्शन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है: www.irps.gov.in
9111-DK/24

संक्षिप्त

कुलदीप शर्मा को मिली पदोन्नति

उनियारा/चौर, (निसं)। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के महासचिव सहायक प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त कुलदीप शर्मा को प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।



कुलदीप शर्मा

महासचिव शर्मा को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी गणों ने सम्मानित कर शुभकामनाएं दीं। प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर उनियारा उपखंड क्षेत्र के पत्रकारों में हर्ष व्यक्त कर उन्हें बधाई दी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कुलदीप शर्मा को पदोन्नति पर उनियारा क्षेत्र के पत्रकार प्रवीण कुमार शर्मा, सुरेंद्र शर्मा चौर, राजेश गौतम, भगवान सहाय शर्मा, आनंद शर्मा, महेश त्रिपाठी, निर्मल गुप्ता, सत्यप्रकाश शर्मा, मुनीम मीणा, संदीप गुप्ता, मुजमिल सारण, मदन लाल सैनी, राहुल शर्मा, अशोक कुमार सैनी चौर, सुरेश धाकड़, शोभा लाल धाकड़, माजिद खान आदि ने बधाई दी है।

मीरा जयंती महोत्सव आज

टोंक, (निसं)। विजयवर्गीय समाज की आराध्य देवी भक्त शिरोमणि मां मीराबाई का जन्मोत्सव 4 अगस्त रविवार को रामद्वारा में संत कोमल रामदास महाराज के सानिध्य में मनाया जायेगा। अखिल भारतीय विजयवर्गीय टोंक प्रदेश महिला मंडल की अध्यक्ष शिक्षा पब्लिक मोहन विजय ने बताया कि मां मीराबाई का जन्म उत्सव 4 अगस्त रविवार को रामद्वारा में संत कोमल रामदास महाराज के सानिध्य में मनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि दोपहर 2 बजे से कीर्तन एवं प्रसादी कार्यक्रम का विवरण का आयोजन किया जायेगा।

बजरंगबली महाराज का भंडारा आयोजित

कोटपूतली, (निसं)। ग्राम रघुनाथपुर में हर वर्ष की भाँति शनिवार को बजरंगबली महाराज का विशाल भण्डारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर भजन गायक कलकारा सौताराम महाशी, सुरेश एण्ड पार्टी आंतेला, भरत सैन मेह, संतोष यादव मानपुरा माचेडी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान एड. दिनेश कुमार अग्रवाल, दर्याम यादव, धर्मपाल यादव, पप्पू यादव, किशोरी यादव, मुकेश यादव, शिम्भू यादव, लक्ष्मण यादव, हरिसिंह यादव, जयसिंह यादव, महेंद्र यादव, महेश यादव, राकेश खोला, संदीप सनवाल, एड. राजेश यादव, राजेंद्र शेखावत, शिम्भूयाल मीणा, विकास चौधरी, गोवर्धनपुरा सरपंच प्रतिनिधि रघुवीर यादव, रोहितारा नेता समेत अन्य मौजूद रहे।

जवाहर सिंह बेदम आज कोटपूतली में

कोटपूतली, (निसं)। प्रदेश के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम रविवार को कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेगी। बेदम क्षेत्र के ग्राम फतेहपुरा खुर्द स्थित श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर में भामाशाह चन्द्रशेखर जोशी, रिशाल सिंह, ओमप्रकाश सिंह व कृष्ण सिंह द्वारा नवनिर्मित सिंह द्वार, हॉल व बरामदे का वीर मुख् अतिथि लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक हंसराज पटेल द्वारा की जायेगी। जबकि विशिष्ट अतिथियों में विराटनगर विधायक कुलदीप धाकड़, बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा, भाजयूपो के पूर्व प्रदेश मंत्री देवायुष सिंह शाहपुरा व ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री एड. हीरालाल रावत आदि भाग लेंगे। इस मौके पर विशाल समारोह भी आयोजन होगा।

सिंह द्वार व भवन का लोकार्पण आज

पावटा, (निसं)। ग्राम पंचायत फतेहपुर खुर्द में भूतेश्वर धाम पर रविवार सुबह 10 बजे भामाशाह चंद्रशेखर जोशी पुत्र स्व. राजकुमार जोशी, रिशाल सिंह पुत्र स्व.शिभू सिंह, ओमप्रकाश सिंह पुत्र स्व. श्यामल सिंह, कृष्ण सिंह पुत्र मकतुल सिंह द्वारा नवनिर्मित सिंह द्वार व हाल मय बरामदे का लोकार्पण गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग राजस्थान सरकार मंत्री जवाहर सिंह बेदम के मुख्य आतिथ्य एवं कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल की अध्यक्षता व विधायक कुलदीप धनकड़, विधायक देवी सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा जयपुर देहात उत्तर श्याम शर्मा, पूर्व प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा देवायुष सिंह, पूर्व प्रदेश महामंत्री ओ बी सी मोर्चा हीरालाल रावत के विशिष्ट आतिथ्य में किया जायेगा। वहीं रविवार व सोमवार को विशाल भंडारा आयोजित किया जायेगा।

कांग्रेस एक परिवार के आदेश पर चलने वाली पार्टी : भूपेंद्र यादव

अलवर, (निसं)। सांसद और केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मांडन स्थित सिद्ध सेवा धाम में शिव पूजा की और ग्रामीणों की ओर से उनका स्वागत किया गया।

केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मांडन के लोगों का लोकसभा चुनाव में सहयोग देने के लिए आभार जताया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि वे अब इस क्षेत्र के विकास के लिए लोगों का सहयोग मांगने आए हैं। उन्होंने मांडन को नगर पालिका बनाने और यहां पर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का भी आभार जताया।

मलबे में दबने से वृद्धा की मौत

बाँली-बामनवास, (निसं)। क्षेत्र के पीपलदा गांव में शनिवार को एक 80 वर्षीय वृद्धा की कच्ची दीवार के मलबे में दबने से मौत हो गई। सूचना पाकर बाँली पुलिस मौके पर पहुंची एवं वृद्धा के शव को बाँली चिकित्सालय लाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक वृद्धा के बेटे बाबूलाल रैगर निवासी पीपलदा ने बताया कि मेरी 80 वर्षीय मां पुनी देवी रैगर अपने घर पर कच्ची दीवार के सहारे बैठी हुई थी वर्षा के दौरान दीवार में सीलना आ जाने से दीवार टूट कर गिर गई जिससे मेरी मां मलबे में दब गई उसे बाहर निकाल कर बाँली चिकित्सालय ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृग दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

घरों के बाहर भरा बारिश का पानी, निकलना मुश्किल हुआ

निवाड़ी, (निसं)। ढाणी जुगलपुरा कलां की श्याम विहार द्वितीय कॉलोनी में पिछले 3 दिन से बरसाती पानी भरा हुआ है। जिससे कॉलोनीवासियों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। कॉलोनीवासियों ने बताया कि कॉलोनी में आम रास्ता स्वीकृत है लेकिन

स्वीकृत रास्ता बनवाने व बरसाती पानी की निकासी करवाने की मांग

रोड का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिससे समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी का आम रास्ता बनवाने के लिए पूर्व में कॉलोनीवासियों ने तत्कालीन एस्डीएम त्रिलोकचन्द मीणा, तहसीलदार, पंचायत समिति प्रधान व पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा को ज्ञापन सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने चरागाह व सिवायचक भूमि पर



सांसद और केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मांडन स्थित सिद्ध सेवा धाम में शिव पूजा की।

भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों से एक पेड़ का नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। मंत्री ने पीपल, नीम, बहेडा, आमला और जामुन जैसे पेड़

लगाने की भी अपील की। भूपेंद्र यादव ने गंडाला के लोगों से उनकी झील को भी सबसे साफ झील बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया।

केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्षेत्र के पानी, सड़क और पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी करने के कामों को प्रशासन के साथ बात करके पूरा करने

विवाहिता की संदिग्ध मौत

निवाड़ी, (निसं)। भगतसिंह कॉलोनी में शुक्रवार की रात करीब 8 बजे एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस को कूलर में चुनी फंसने से मौत होना बताया है जबकि मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के हत्या परेशान करने एवं फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है।



पुलिस ने शनिवार को मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव को पीहर पक्ष को सौंप दिया। पीहर पक्ष ने निवाड़ी में ही शव को दफना दिया। थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि मृतका के भाई साबिर कुरेशी निवासी ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर ने बताया कि उसकी बहन चांदनी का निकाह 2 वर्ष पूर्व अहमद उर्फ गोलू पुत्र अशरफ

निवासी जिरात बाबा रोड भगारसिंह कॉलोनी के साथ हुआ था। मृतका के एक डेढ़ वर्षीय बालिका भी है। शादी के बाद से ही उसकी बहन को ससुराल पक्ष के लोग दहेज लाने के लिए 7 माह से प्रताड़ित कर रहे थे। उसने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी बहन चांदनी को दहेज लोभियों ने गला घोट कर मार दिया व कानून से बचने के लिए कूलर में चुनी फंसने पर मौत होना बताकर दुर्घटना का रूप दे दिया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतका के भाई साबिर ने मृतका के पति

अहमद उर्फ गोलू व ससुर अशरफ कुरेशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना की सूचना पर उपखंड अधिकारी सुरेशकुमार हरसोलिया व डीवाईएसपी मृत्युंजय कुमार मिश्रा राजकीय सामुदायिक अस्पताल में पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मामले की जांच निवाड़ी डीवाईएसपी मृत्युंजय कुमार मिश्रा कर रहे हैं।

पावटा में आम रास्ते में बरसाती पानी भरने से विद्यार्थी व राहगीर परेशान

पावटा, (निसं)। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व खोस्ता मंदिर जाने वाले आम रास्ते में पानी भरने की समस्या से छात्र-छात्राओं, शिक्षक व लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम रास्ते में बरसात का पानी ज्यादा भर जाने से राहगीरों, ग्रामीणों और स्कूल विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही वाहन चालक भी परेशान रहते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय जाने के लिए यह मुख्य रास्ता है और इसमें भी इतना पानी भर जाता है कि दो-तीन दिन तक आवागमन बाधित रहा। जिम्मेदारों और जनप्रतिनिधियों को कई बार समस्या से अवगत करवाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी है। बारिश के बाद तो पानी निकासी के अभाव में रास्ता तालाब में तब्दील हो जाता है। कई कर्मियों से जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग लोगों की आवाजाही के लिए काफी सुविधाजनक है। कई गांव के लोगों



आम रास्ते में बरसात का पानी ज्यादा भर जाने से राहगीर, विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही वाहन चालक भी परेशान रहते हैं।

को यह सड़क मार्ग हाईवे तक जोड़ना है लेकिन बारिश के चलते यहां बीच

सड़क पर पानी भरा हुआ है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान आकर्षित

नहीं है। इसके चलते दुपहिया वाहन चालक बीच पानी में होकर अपनी

सार-समाचार

पुत्री के जन्मदिन पर किया पौधारोपण



कोटपूतली, (निसं)। स्वच्छता सेवा दल टीम के सदस्य गिरकर शर्मा ने पुत्री प्राची शर्मा के जन्मदिन पर पौधारोपण किया। संयोजक प्रवीण बंसल ने बताया कि टीम द्वारा विभिन्न अवसरों पर मंदिरों, सार्वजनिक पार्कों व विद्यालयों में विभिन्न किस्म के पेड़-पौधे लगाये जा रहे हैं। संरक्षक महेश मीणा ने कहा कि प्रत्येक अवसर पर पेड़-पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा रखने का प्रयास करना चाहिये। इस दौरान विजय कुमार शर्मा, मधु शर्मा, सुशीला शर्मा, विष्णु सैन, दिनेश गौलिया समेत अन्य मौजूद रहे।

महिला घरेलू हिंसा रोकथाम कार्यक्रम



श्रीमाधोपुर, (निसं)। स्वयंसेवी संस्था विनायक महिला विकास समिति के सौजन्य से राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीमाधोपुर में प्राचार्य डॉक्टर सांवरमल जाट की अध्यक्षता में महिला घरेलू हिंसा रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार सैनी ने बताया कि इस अवसर पर एडवोकेट संजय शर्मा एवं रामकिशन सैनी द्वारा महाविद्यालय की छात्राओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को महिला घरेलू हिंसा से संबंधित विभिन्न कानून की जानकारी दी। बताया कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न एवं हिंसा को रोकने की हम सब की जिम्मेदारी है। घर में सास, बहु, मां, बेटी की तरह रहे तो घरेलू हिंसा को बहुत हद तक रोका जा सकता है। महिलाओं को उनके अधिकार मिलाना चाहिए। संस्था के कोऑर्डिनेटर सैनी ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर, इंद्रा महिला शक्ति केंद्र आदि पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अपना परिवार दे सकती हैं जहां उनका कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम में महाविद्यालय संकाय सदस्य डॉक्टर पूजा वर्मा, बुद्धि प्रकाश सैनी आदि उपस्थित रहे।

भक्तामर मंडल अनुष्ठान का आयोजन

निवाड़ी, (निसं)। श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अग्रवाल मंदिर पर सकल दिगम्बर जैन समाज के तत्वावधान में आयोजित 48 दिवसीय भक्तामर मण्डल अनुष्ठान का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भक्तामर स्तोत्र की पूजा अर्चना की। जैन समाज के प्रवक्ता विमल जौला ने बताया कि जैन मुनि अनुसरण सागर महाराज संघ के सानिध्य में 48 दिवसीय भक्तामर अनुष्ठान किया गया जिसमें सूरजमल जैन एवं नवरत्न टोंग्या को भगवान के अधिषेक एवं शांतिधारा करके भक्तामर अनुष्ठान में 48 श्रीफल अर्घ्य चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रचार-प्रसार संयोजक हितेश छाबडा ने बताया कि पिण्डत सुरेशकुमार शास्त्री के निर्देशन में रिद्धि मंत्रों द्वारा मण्डल जी पर श्रीफल अर्घ्य चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। हितेश छाबडा ने बताया कि श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान में भगवान शांतिनाथ जी के अधिषेक कर शांतिधारा की एवं आचार्य अधिनन्दन सागर महाराज एवं मुनि अनुसरण सागर महाराज की संगीतमय पूजन कर श्रीफल अर्घ्य चढ़ाकर पूजा अर्चना की।

सूरजनारायण ट्रक यूनियन के अध्यक्ष

निवाड़ी, (निसं)। श्री ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के वार्षिक चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी व पर्यवेक्षक भंवरलाल यादव के नेतृत्व में यूनियन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से सूरजनारायण शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रभारी व पर्यवेक्षक भंवरलाल यादव ने बताया कि सर्वसम्मति से कार्यकारणी का गठन करके कार्यकारणी में संरक्षक के पद पर नदीम मेवाती, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश मीणा, कोषाध्यक्ष ताराचन्द सैनी व महामंत्री के पद पर हबीब मेवाती को मनोनीत किया गया। इसी प्रकार संगठन मंत्री कमलेश मीणा मूंडिया, कार्यालय मंत्री गणपतलाल मीणा तथा वरिष्ठ सदस्य लालराम मीणा, महावीर सैनी, बजरंगलाल जाट व निजाम लुहार को मनोनीत किया गया। चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद ट्रक मालिकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सूरजनारायण शर्मा व कार्यकारणी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल यादव ने नवीन पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष यादव ने वार्षिक आय-व्यय की ब्योरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष कैलाश चौधरी, रामनिवास यादव, रामलाल मीणा, जमील कुरेशी, सूरजनारायण शर्मा, शकील मेवाती, रसीद कुरेशी, कैलाशचन्द सैनी, राजाराम जाट भावती, रसीद कुरेशी उर्फ गुल्लू, प्रेमचन्द मीणा, कैलाशचन्द सैनी, मुरारीलाल यादव, नाग अली, आजाद राधेश्याम पहाडी, मदनलाल मीणा व नरसीलाल मीणा सहित कई ट्रक मालिक मौजूद थे।

सावन एवं राखी एकजीबिशन आज से

टोंक, (निसं)। जिले की महिलाओं को आगे बढ़ाने की सार्थक कोशिशों के तहत प्रत्येक वर्ष की भाँति इस साल भी सावन एवं राखी एजजीबिशन का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में रविवार से किया जा रहा है। आयोजन प्रेरणा ग्रुप ऑफ टोंक और इनरव्हील क्लब टोंक के संयुक्त तत्वावधान में सम्पन्न होगा। प्रेरणा ग्रुप की संयोजक रेखा जाजू ने बताया कि बहुत ही शानदार राखी सावन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हैंड क्रिएटिव, हैंड मेड राखी, होम मेड फूड आइटम, एक्सक्लूसिव कोटा डोरिया साड़ी, लकजरी हैंडलूम साड़ी, लेटेस्ट ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न ज्वेलरी, डिजाइनर कुतियां, हैंड मेड पर्स एंड बैग्स, वैराइटी ऑफ बेडशेड्स, डिजाइनर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, डिजाइनर रेडीमेड ब्लाउज, स्क्रीन प्रिंट हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फूड स्टॉल्स एवं बहुत सारे हाइस होल्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जाजू के अनुसार महिला मेला लगातार तीन साल से आयोजित किया जा रहा है, इसे लेकर महिलाओं में काफी उत्साह रहता है। एकजीबिशन टोंक शहर में 4, 5 व 6 अगस्त को अग्रवाल धर्मशाला में सुबह 11 बजे से शाम 6.30 तक आयोजित की जाएगी। मेले में इस बार अजमेर और भीलवाड़ा से भी महिलाएं भाग लेंगी।

ललित के पंवार पहुंचे डिग्गी

मालपुरा, (निसं)। राजस्थान सरकार द्वारा नवीन जिलों के पुर्नगठन व समीक्षा के लिये गठित किये गये जिला पुर्नगठन समिति अध्यक्ष ललित के पंवार शनिवार को तीर्थ स्थल डिग्गी में श्रीजी के दरबार में पहुंचे। ललित के पंवार के साथ पहुंचे डिग्गी मेला मजिस्ट्रेट अमित चौधरी, फुल्याकलां शाहपुरा एस्डीएम राजकेश मीणा का मंदिर ट्रस्ट व पुजारी परिवार द्वारा श्रीजी का दुपट्टा पहना स्वागत किया गया। पंवार ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली एवं लकड़ी मेले के सफल आयोजन की कामना की। इस दौरान मंदिर ट्रस्टी गिराज शर्मा, पुजारी शंकर प्रसाद शर्मा, मंदिर अहलकार दिनेश शर्मा, केडी शर्मा आदि मौजूद रहे तो वहीं देव शर्मा को जोधपुर के पूर्व मेयर राजेन्द्र कुमार गहलोटी भी डिग्गी पहुंचे। ग्राम रक्षक सुरेन्द्र शर्मा व पुजारी परिवार ने गहलोटी को पुजारी का छाया चित्र भेंट कर स्वागत किया।



चौथा स्थान हासिल करना निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं लगता लेकिन अगली बार निश्चित तौर पर परिणाम मेरे अनुकूल होगा। अब मेरे पास दो पदक हैं और अगली बार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ढेर सारी प्रेरणा है। - मनु भाकर

भारतीय निशानेबाज, पेरिस ओलंपिक में अपने प्रदर्शन को लेकर।



आज का खिलाड़ी



कुमार संगकारा

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के हेड कोच बनेंगे या नहीं? इसे लेकर जमकर अटकलें लग रही हैं। संगकारा ने अब अटकलों पर खुद चुप्पी तोड़ी है। संगकारा का कहना है कि इंग्लैंड का कोच बनना किसे के लिए भी रोमांचक

होगा लेकिन उन्हें अभी तक औपचारिक तौर पर अप्रोच नहीं किया गया है। बता दें कि मैथ्यू मॉट ने हाल ही में व्हाइट-बॉल हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। मॉट का चार साल का अनुबंध था लेकिन दो साल में ही उनकी राई अलग हो गई।

क्या आप जानते हैं?... भारत की ओर से डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट जीतने वाली पहली खिलाड़ी सानिया मिर्जा है। सानिया ने फरवरी, 2005 में हैदराबाद टूर्नामेंट जीतते हुए यह उफालाब्धि हासिल की।

शूटिंग : अनंत जीत सिंह नरुका पुरुषों की स्कीट फाइनल से चूके

पेरिस, 3 अगस्त। भारतीय निशानेबाज अनंत जीत सिंह नरुका शनिवार को पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों के स्कीट क्वालिफिकेशन राउंड में 24वें स्थान पर रहे। चेंटेउरीक्स में, नरुका ने पांच राउंड में कुल 116 का स्कोर बनाया, लेकिन उनका यह प्रदर्शन उन्हें ओलंपिक डेब्यू पर फाइनल में ले जाने के लिए काफी नहीं रहा। केवल शीर्ष छह निशानेबाज आज बाद में पुरुषों के स्कीट फाइनल में हिस्सा लेंगे। भारत ने ओलंपिक में निशानेबाजी में सात पदक जीते हैं। हालांकि, भारतीय निशानेबाज अभी तक ग्रीष्मकालीन खेलों की स्कीट स्पर्धा में पदक नहीं जीत पाए हैं।

नौकायन : विष्णु सरवनन 23वें स्थान पर खिसके

पेरिस, 3 अगस्त। भारत के विष्णु सरवनन शनिवार को पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की डिग्री इवेंट में रस 5 में 21वें और रस 6 में 13वें स्थान पर रहे। सभी नावें शुरुआती सीरीज में 10 रस में हिस्सा लेंगी। सीरीज के बाद शीर्ष 10 नेट स्कोर वाली नौकाएं मेडल रस में शामिल होंगी। रस 6 के बाद, एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता सरवनन 83 नेट स्कोर (कुल 117 अंक) के साथ 23वें स्थान पर है। वह कल अपने प्रदर्शन से एक स्थान नीचे खिसक गए हैं। रस 7 और रस 8 कल यानी चार अगस्त को आयोजित की जाएंगी।

दिल्ली में शुरू होगी सब जूनियर पुरुष और महिला अकादमी चैम्पियनशिप

नई दिल्ली, 3 अगस्त। दूसरी हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला अकादमी चैम्पियनशिप 2024 जून ए और बी रिविवा से नई दिल्ली में पुरुष वर्ग के मैचों के साथ शुरू होगी। इसके बाद पांच अगस्त से महिला वर्ग के मैच शुरू होंगे। पुरुष और महिला दोनों फ़ाइनल 11 अगस्त को होंगे। पुरुष वर्ग के मैच मेजर ध्यानचंद हॉकी ग्राउंड, चुम्मानहेड़ा, दिल्ली में होंगे, वहीं महिला वर्ग के मैच झिलमिल हॉकी सेंटर, नई दिल्ली में खेले जाएंगे। अकादमी चैम्पियनशिप के पुरुष वर्ग में भाग लेने वाली टीम में पूल ए में राउंडग्लास पंजाब हॉकी क्लब अकादमी, चौमा हॉकी अकादमी और रिंगू रानी हॉकी अकादमी हैं। पूल बी में चुम्मानहेड़ा राइजर अकादमी, जय भारत हॉकी अकादमी और आर के रॉय हॉकी अकादमी शामिल हैं। पूल सी राजा करण हॉकी अकादमी, नामधारी स्पोर्ट्स अकादमी और तिरुमावलवन हॉकी अकादमी से बना है।

जय शाह ने दिखाई नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी की पहली झलक, जल्द उद्घाटन

नई दिल्ली, 3 अगस्त। बंगलुरु में जल्द ही एक नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी (एनसीए) का उद्घाटन होने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने नए एनसीए की पहली झलक दिखाई है। उन्होंने चार तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें एनसीए का नजारा देखा जा सकता है। बीसीसीआई सचिव ने साथ ही बताया कि यहां क्या-क्या सुविधाएं होंगी? उन्होंने कहा कि नए एनसीए में तीन विश्व स्तरीय खेल मैदान के साथ 45 प्रैक्टिस पिच होंगी। यहां ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी होगा। जय शाह ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बीसीसीआई की नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी लगभग पूरी हो गई है और जल्द ही बंगलुरु में खुलेगी। नए एनसीए में तीन वर्ल्ड क्लास खेल मैदान, 45 प्रैक्टिस पिच, इनडोर क्रिकेट पिच, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और अत्याधुनिक ट्रेनिंग, रिकवरी और खेल विज्ञान सुविधाएं होंगी। इस पहल से हमारे देश के वर्तमान और भविष्य के क्रिकेटर्स को सर्वोत्तम संभव माहौल में अपना कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी। बीसीसीआई सचिव की पोस्ट पर क्रिकेट फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कहा, युवाओं के लिए बेहतर अभ्यास करने का यह सबसे अच्छा अवसर होगा। दूसरे ने कमेंट किया, सभी युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। रिकवरी प्रोसेस और भी आसान होगा। तीसरे ने कहा, अच्छी सुविधाओं से ही खिलाड़ियों को अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। अन्य ने लिखा, देश में क्रिकेट की बेहतरी के लिए इसी तरह से पैसा का निवेश किया जाना चाहिए।

मान ने सिंह को अगले मुकाबलों के लिए टी शुभकामनायें

चंडीगढ़, 3 अगस्त। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को फोन करके पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मैच के लिये शुभकामनायें दीं। मान ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अफसोस जताया कि वह पेरिस जाकर भारतीय हॉकी टीम का होसला बढ़ाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अच्छी तरह पता होने के बावजूद, राजनीतिक कारणों से मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया। श्री मान ने कहा कि वह मैच के दौरान भारतीय हॉकी टीम के साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें टीवी स्क्रीन पर मैच का सीधा प्रसारण देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा, भले ही मुझे अनुमति देने से इनकार किया गया है, लेकिन पूरा देश और खास तौर पर पंजाब इस मैच के दौरान हॉकी के नायकों के साथ होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में देश के लिये स्वर्ण पदक जीतकर सफलता की नयी कहानी लिखेगी। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पदक लेकर घर लौटने वाली हॉकी टीम का भव्य स्वागत किया जायेगा। मान ने खेल के कुछ तकनीकी पहलुओं को साझा करते हुये हरमनप्रीत को सलाह दी कि वे टीम के सेंटर में स्थित उन जगहों पर ध्यान दें, जहां से हाल ही के मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा अधिक पास दिये गये थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि भारत ने 52 साल के लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया।

बैडमिंटन में भारत को स्वर्ण की उम्मीद लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचे



नई दिल्ली, 3 अगस्त। पिछले दो ओलंपिक खेलों में चीनी दबदबा वाले समझे जाने वाले बैडमिंटन में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। बैडमिंटन दो खिलाड़ियों

या युगल टीमों द्वारा कोर्ट पर खेला जाने वाला एक रैकेट और शटल के साथ खेला जाने वाला गेम बैडमिंटन कहलाता है। इस खेल का नाम इंग्लिश काउंटी ग्लोस्टरशायर में ड्यूक ऑफ़ ब्यूफोर्ट के

घर बैडमिंटन हाउस से लिया गया है। वर्तमान में बैडमिंटन मैच बेस्ट ऑफ़ 3 गेम के लिए खेले जाते हैं, जिसके अनुसार पहले जो भी खिलाड़ी 2 सेट अपने नाम कर लेता है वह विजेता घोषित

कर दिया जाता है। बैडमिंटन का प्रत्येक राउंड 21-21 पॉइंट का होता है। इस खेल में इस्तेमाल होने वाले कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर होती है। तो वहीं, सिंगल्स के लिए कोर्ट की चौड़ाई 5.8 मीटर और डबल्स के लिए 6.01 मीटर होती है। खेल में प्रयुक्त नेट की निर्धारित ऊंचाई 1.2 ही मीटर रखी जाती है। मैदान के चारों ओर प्रयुक्त डबल लाइन और सिंगल लाइन भी बनी होती है, जिसे सिंगल्स और डबल्स स्पर्धाओं में अलग-अलग तरह से उपयोग में लाया जाता है।

बैडमिंटन का ओलंपिक में डेब्यू 1992 में हुआ था। तो वहीं, मिश्रित युगल स्पर्धा की शुरुआत 1996 के अटलांटा ओलंपिक गेम्स में हुई थी। 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत को लक्ष्य सेन से स्वर्ण पदक की पूरी-पूरी उम्मीद है। जो सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुके हैं। तो वहीं, पिछले दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु इस बार क्वार्टरफाइनल में हार्कन टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी हैं।

भारत की तीरंदाजी में पदक का 52 साल का इंतजार और लंबा हुआ

पेरिस, 3 अगस्त। ओलंपिक में तीरंदाजी पदक के लिए भारत का 52 साल पुराना इंतजार शनिवार को यहां चार बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी के बाहर होने के साथ और भी लंबा हो गया। भारतीय मिश्रित टीम के चौथे स्थान पर रहने के एक दिन बाद शनिवार को 30 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने प्री-क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की ओलंपिक रजत पदक विजेता मिशेल क्रोपेन को 6-4 (27-24, 27-27, 27-29, 27-27) से हराकर अच्छी शुरुआत की लेकिन वह क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय कोरियाई खिलाड़ी नाम सुहयोन से 6-4 (26-28, 28-25, 28-29, 29-27, 29-27) से हार गयीं। अपने चौथे ओलंपिक में भाग ले रही अनुभवी भारतीय खिलाड़ी ने धैर्य के साथ संघर्ष किया, दूसरे सेट में अंक बांटे और तीसरे सेट में सात का स्कोर करने के बाद भी अपनी बढ़त 5-1 कर ली।

ब्रिटेन से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम



नई दिल्ली, 3 अगस्त। भारतीय हॉकी टीम का पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड को हराने वाली भारतीय टीम की अगली भिड़ंत तय हो गई है। दरअसल, भारत का अगला मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से है। ब्रिटेन अपने ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत ग्रुप बी में

दूसरे पर काबिज है। वहीं बता दें कि, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को ही हराया था। भारतीय हॉकी ने अपने पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया था। भारत ने ओलंपिक्स में कंगारू टीम को 52 साल बाद हराया है। लेकिन भारत को ऑस्ट्रेलिया से पहले बेल्जियम के हाथों हार

झेलनी पड़ी। वहीं अर्जेंटीना से भारत ने डूंगें खेला था। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो उसे अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में जर्मनी के खिलाफ 1-2 से हार झेलनी पड़ी। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला 4 अगस्त रविवार को खेला जाएगा। वहीं ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा।

अनवर ने बिना उचित कारण के मोहन बागान से तोड़ा नाता : एआईएफएफ

कोलकाता, 3 अगस्त। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने शनिवार को कहा कि डिफेंडर अनवर अली (23) द्वारा अपने क्लब मोहन बागान सुपर जायंट के साथ खिलाड़ी ऋण समझौते से संबंधित समाप्ति बिना किसी उचित कारण के की गई। एआईएफएफ की प्लेयर्स स्टेटस कमेटी ने अपने अंतरिम आदेश में अनवर अली द्वारा अपने क्लब मोहन बागान सुपर जायंट के साथ खिलाड़ी ऋण समझौते से संबंधित बर्खास्तगी को बिना किसी उचित कारण के पाया। समिति ने दो अगस्त 2024 को आयोजित अपनी बैठक में विवाद के दोनों पक्षों को सुना और निष्कर्ष निकाला कि खिलाड़ी द्वारा बिना किसी उचित कारण के अनुबंध समाप्त करने के लिए प्रतिवादी क्लब के लिए उपाय

केवल क्षतिपूर्ति/मुआवजा और संबंधित विनियमों से उत्पन्न होने वाले अन्य संबंधित परिणामों में निहित है। समिति ने दिल्ली एफसी और ईस्ट बंगाल एफसी को प्रभावित पक्ष पाया और उन्हें अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया, साथ ही खिलाड़ी और क्लब को आठ अगस्त, 2024 तक मुआवजे और इस तरह की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य परिणाम तक सीमित कर और जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। समिति सभी उत्तरों की प्राप्ति पर मुआवजे के मुद्दे और या बिना किसी उचित कारण के ऋण अनुबंध को समाप्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य परिणाम पर निर्णय लेने के लिए अगली सुनवाई की तारीख तय करेगी।

मनु भाकर पदकों की हैट्रिक लगाने से चूकी

नई दिल्ली, 3 अगस्त। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक खेलों की 25 मीटर महिला स्पोर्ट्स पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में शनिवार को यहां चौथे स्थान पर रहते हुए पदक से चूक गयीं। बाइस साल मनु ने आठ महिलाओं के फाइनल में 28 का स्कोर किया और इस खेलों में पदकों की हैट्रिक पूरी करने से चूक गईं। वह शूट-ऑफ में हंगरी की कांस्य पदक विजेता वेरोनिका मेजर से हार गईं। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को प्रिंसिजन में 294 और रेपिड में 296 अंक के साथ कुल 590 अंक जुटाकर क्वालीफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश किया था। मनु भाकर ने व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद सरबजोत सिंह के साथ होने वाले किसी भी अन्य परिणाम पर निर्णय लेने के लिए अगली सुनवाई की तारीख तय करेगी।

मीराबाई चानू से इस बार गोल्ड मेडल की आस



नई दिल्ली, 3 अगस्त। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली स्टर वेटीलफ्टर सेखोम मीराबाई चानू से देश को इस बार गोल्ड मेडल की आस है। 49 किलो भारवर्ग में वजन उठाकर गोल्ड मेडल का जोर लगाने के लिए मीराबाई पूरी जोरों शोरों

देखें तो फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वेटीलफ्टर है जिसने मीराबाई से ज्यादा वजन उठाया है। मीराबाई ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड अपने नाम किया था। उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी रिल्वर मेडल जीता था। हालांकि, वह 2022 एशियाई खेलों में अपना जलवा नहीं दिखा पाई थीं। भारतीय फैंस इस बार उनके स्नेह, क्लोन और जर्क राउंड में बेहतरीन तालमेल को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 201 किलो वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया था, तब उनके मुकाबले में उनके आसपास भी कोई नहीं थी। इन खेलों में रिल्वर मेडल अपने नाम करने वाली उनकी प्रतिद्वंद्वी ने सिर्फ 172 किलो भार ही उठाया था। चानू का टारगेट इस बार अपने दोनों राउंड की वेटीलफ्टिंग में ज्यादा से ज्यादा 115 किलो का वजन उठाने पर होगा।

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक व विधायक जयदीप बिहाणी थे

आरसीए का एंपायर व स्कोरर (पुरुष व महिला) फ़ेशर सेमीनार शुरू

जयपुर, 3 अगस्त। आरसीए के 3 दिवसीय आरसीए एंपायर व स्कोरर (पुरुष व महिला) फ़ेशर सेमिनार व परीक्षा का उद्घाटन आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे होटल विएनए, गाँधी पथ वैशाली नगर में हुआ। सेमिनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक व विधायक जयदीप बिहाणी थे साथ इस इस अवसर पर आरसीए एडहॉक कमेटी सदस्य रतन सिंह शेखावत, धर्मवीर सिंह और वीरेंद्र चंद्र सिंह, सेमिनार के सह संयोजक सतीश व्यास, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पंकज सिंह, राजस्थान के पूर्व रणजी कप्तान रोहित



झालानी, विनोद सक्सेना, आरसीए क्यूरेटर तापोश चटर्जी सहित आरसीए ऑफिशियल मौजूद थे। सेमिनार के उद्घाटन आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक व विधायक श्री जयदीप बिहाणी जी ने कहा कि जब से एडहॉक कमेटी का गठन हुआ है उनका व सभी सदस्यों का पूरा प्रयास रहा है की राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए हर स्तर पर उचित खेल का वातावरण व सहायता उपलब्ध कराई जाये जिससे उन्हें आगामी थ्रूलेक सत्र में न केवल खेलने का मौका मिले साथ ही उन्हें उच्च स्तरीय विकेट, मैदान व प्रशिक्षित मैच ऑफिशल्स उपलब्ध हो सकें।



12 साल बाद धोनी से मिले टी-20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल के हीरो जोगिंदर शर्मा

नई दिल्ली, 3 अगस्त। 2007 टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो जोगिंदर शर्मा की हाल ही में मुलाकात पूर्व कप्तान एमएस धोनी से हुई। जोगिंदर पूरे 12 साल बाद माही से मिले और वह इस दौरान काफी खुश नजर आए। जोगिंदर शर्मा ने इस मुलाकात की कुछ झलकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। धोनी से हुई मुलाकात की झलकियां शेयर कीं और कहा कि वह 12 साल बाद धोनी से मिलकर वाकई बहुत खुश हैं। जोगिंदर ने ऐ यार सुन यारी तेरी नाम का एक पुराना हिंदी गाना इस्तेमाल किया और पोस्ट

को कैप्शन दिया, "बहुत लंबे समय के बाद धोनी से मिलकर अच्छा लगा। लगभग 12 साल बाद आपसे मिलने का मजा आज अलग था।" जोगिंदर शर्मा ने भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। धोनी ने फाइनल का आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को देकर एक जुआ खेला था और जोगिंदर उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे थे। माही का जोगिंदर को आखिरी ओवर देना एक निर्णायक फैसला साबित हुआ, मिस्बाह उल हक का विकेट लेकर जोगिंदर शर्मा ने भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीताया था।

सात्विक-चिराग के कोच मैथियास बो ने किया संन्यास का ऐलान

पेरिस, 3 अगस्त। भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेठी के कोच मैथियास बो ने पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के बाद अपने संन्यास की घोषणा की है। बो ने सोशल मीडिया पर कहा, मेरे लिए मेरे कोचिंग के दिन समाप्त होते हैं, मैं कम से कम अभी के लिए भारत या कहीं और कोचिंग जारी नहीं रखूंगा। मैंने बैडमिंटन हॉल में बहुत अधिक समय बिताया है और कोच बनना भी काफी तनावपूर्ण है। बो के सानिध्य में भारतीय जोड़ी सात्विक-चिराग ने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में खिताब जीते जबकि विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता। उन्होंने अपनी पोस्ट में सात्विक-चिराग की प्रशंसा की। उन्होंने अपने पेरिस 2024 अभियान के बाद कहा, मुझे पता है कि आप लोग निराश हैं, मुझे पता है कि आप भारत के लिए पदक वापस लाना चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना था। बो ने आगे कहा, लेकिन आपके पास गर्व करने के लिए सबकुछ है, आपने इस ओलंपिक कैम्प में कितनी मेहनत की है। आपने पिछले वर्षों में बहुत कुछ जीता है और आप भविष्य में भी बहुत कुछ जीवने जा रहे हैं।

हर हॉकी अकादमी, आर्मी बाँयज स्पोर्ट्स कंपनी रिपब्लिकन स्पोर्ट्स क्लब और अश्विनी स्पोर्ट्स अकादमी को पूल-डी में रखा गया

नई दिल्ली, 3 अगस्त। महिला वर्ग में दो पूल हैं। पूल ए में हर हॉकी अकादमी, खालसा हॉकी अकादमी (अमृतसर), अनंतपुर स्पोर्ट्स अकादमी और रिंतु रानी हॉकी अकादमी शामिल हैं। पूल बी में जय भारत हॉकी अकादमी, सिटीजन हॉकी इलेवन, राउंडग्लास पंजाब हॉकी क्लब अकादमी और आर के रॉय हॉकी अकादमी शामिल हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप टिर्का ने कहा, खिलाड़ियों के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें युवाओं को उनके करियर के शुरूआती चरण में पर्याप्त पैर अनुभव प्रदान करना चाहिए। सब जूनियर अकादमी चैंपियनशिप युवाओं को वर्षों से की गई कड़ी मेहनत के परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच देगी।

मनु आपने कम उम्र में स्थापित की उल्लेखनीय विरासत : बिंद्रा

नई दिल्ली, 3 अगस्त। बीजिंग ओलंपिक 2008 के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने भारतीय महिला शूटर मनु भाकर का उत्साहवर्धन करते हुये कहा कि उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में एक उल्लेखनीय विरासत स्थापित कर ली है। मनु ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर पिस्टल की व्यक्तिगत और मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीत कर देश को गौरवान्वित किया है हालांकि शनिवार को वह 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में हैट्रिक पदक पर निशाना लगाने से चूक गयीं और उन्हें चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। बिंद्रा ने मनु के प्रयास की सराहना करते हुये एक्स पर पोस्ट किया मनु, आपने पूरे देश को अपनी अविश्वसनीय उपलब्धि की सराहना करने के लिए मजबूर कर दिया है। तीसरा ओलंपिक पदक जीतना एक असाधारण उपलब्धि होती, लेकिन आपने पेरिस में जो हासिल किया वह वास्तव में स्मारकीय है। आपको यात्रा अथक परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। मात्र 22 साल की उम्र में, आपने पहले ही एक उल्लेखनीय विरासत स्थापित कर ली है, और यह केवल शुरुआत है। मनु भाकर ऐसी चौथी भारतीय निशानेबाज हैं जो मामूली अंतर से हार कर ओलंपिक में चौथी पायदान पर आयी हैं। इससे पहले मौजूदा ओलंपिक में भारतीय पुरुष शूटर अर्जुन बाबुता 10 मीटर एयर राइफल में चौथे स्थान पर आये थे जबकि 2012 के लंदन ओलंपिक में जयदीप कर्नाकर को पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन में चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। 2008 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक 2016 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में पदक जीतने से चूके थे।

से तैयारी कर रही है। साथ ही दिलचस्प बात ये है कि भारत की तरफ से इस इवेंट में वेटीलफ्टर सेखोम मीराबाई चानू से देश को इस बार गोल्ड मेडल की आस है। 49 किलो भारवर्ग में वजन उठाकर गोल्ड मेडल का जोर लगाने के लिए मीराबाई पूरी जोरों शोरों



भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा मुख्यालय में शनिवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थीं।

“बन्ना म्हारो केशरियो हजारी गुल रो फूल...”, मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, भाजपा की सरकार ने सत्ता संभालते हुए एस.आई.टी. गठित की और 7 माह में 115 पेपर माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया

जयपुर, 3 अगस्त, (का.सं.)। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पदभार ग्रहण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए खुन पसीना एक कर दूंगा। उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को देखकर भावविभोर होकर कहा कि जो स्नेह और सम्मान मुझे दिया गया है, उसका मैं ऋणी हूं। जो मार्गदर्शन मुझे मिला है, उसके अनुसार संघटन और सत्ता के मध्य सेतु बनकर शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो वहां सरकार के प्रतिनिधि हैं। आज राज कार्यकर्ताओं का है, सरकार कार्यकर्ताओं की है और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जन्म तक ले जाने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं की है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजस्थानी गीत का उदाहरण देते हुए कहा, विवाह में दूल्हे के लिए परिजन महिलाएं गीत गाती हैं कि “बन्ना म्हारो केशरियो हजारी गुल रो फूल...”। वैसे ही देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राजस्थान का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हम सबके दूल्हा हैं। राठौड़ ने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती नेतृत्वकर्ताओं ने संघटन को मजबूती देने का और आगे बढ़ाने का काम बड़ी शिष्टता से किया है। मैं उनसे प्रेरणा लेकर और उनके मार्गदर्शन में जो विश्वास केन्द्रीय नेतृत्व ने बताया है और जो भरोसा कार्यकर्ताओं ने किया है, उस पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का अभिनन्दन करते हुए कहा कि मदन राठौड़ के नेतृत्व में हम सब भाजपा के विचार को इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने विचार और संस्कार के

■ नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने कहा, केन्द्रीय नेतृत्व ने सहज, सरल और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान सौंपी।

■ इस अवसर पर वसुंधरा राजे ने कहा, राजनीति में पद, मद और कद महत्वपूर्ण हैं। जनता के प्यार और विश्वास से अर्जित करें स्थाई कद।

■ नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जाति और मजहब के नाम पर देश को बांटने का बखर्ख कर रही है। उसे रोजे में रोजेदारों के लिए अलग से व्यवस्थाएं करना अच्छा लगता है लेकिन श्रावण के पवित्र माह में कार्डियों की आस्था का सम्मान करना नागवार गुजरता है।

उन्होंने कहा, केन्द्रीय नेतृत्व ने मदन राठौड़ जैसे सहज, सरल और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान सौंपी है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार, और हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस अवसर पर कहा कि राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, हर किसी को

इस दौर से गुजरना पड़ता है। राजनीति में तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, पद, मद और कद। पद और मद तो आते जाते हैं लेकिन, जो व्यक्ति अपने काम से कद को बना लेता है, यही उसकी पूंजी है। जनता के प्यार और विश्वास से अर्जित कद स्थाई है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल पार्टी नहीं है, एक परिवार है और इस परिवार की सदस्य होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान की हमारी भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार, हमारे लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, हम सबका पूरा विश्वास है कि अपने अनुभव से संगठन की ऊर्जा का उपयोग करते हुए मदन राठौड़ भाजपा को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे।

इस अवसर पर मंच संचालन भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने किया और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने आभार व्यक्त किया। मंच पर राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, सतीश पृथ्वी व अरुण चतुर्वेदी सहित अनेक वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की।

कार्यक्रम में संत शक्ति का मिला आशीर्वाद

कार्यक्रम में अलग से बने एक मंच पर प्रदेश के प्रख्यात साधू-संत उपस्थित थे। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को संतजनों ने अपना आशीर्वाद दिया। वे मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले संत शक्ति के मंच पर पहुंचे और आशीर्वाद लिया।

जयपुर एयरपोर्ट से प्रदेश मुख्यालय तक जोरदार स्वागत

भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के राजधानी दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाव-भीना स्वागत किया। इसके बाद युवा मोर्चा के नेतृत्व में बाइक रैली एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक निकालकर नए प्रदेश अध्यक्ष का अगवानी की गई। इस दौरान रास्ते में भाजपा के विभिन्न मोर्चा, प्रकोष्ठों और सामाजिक संगठनों की ओर से पुष्पवर्षा एवं ढोल-नगाड़ों के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया।

विधि विधान पूर्वक संभाली जिम्मेदारी

भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर वैदिक पूजा अर्चना के बाद नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से प्रदेश के नए अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, संगठन सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक सहित प्रमुख जन उपस्थित थे।

21 साल से कम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वित्त सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड और राजकोष निदेशक के साथ राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अरूप डंडे की एकलपीठ ने यह आदेश संदीप व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 20 जून, 2023 को कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राखसे लेखाकार के पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 21 साल रखी गई थी। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अलावा अन्य अभ्यर्थी के भर्ती की लिखित परीक्षा में कम से कम चालीस फीसदी अंक होने चाहिए थे। याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन को इन दोनों शर्तों की अवहेलना हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है, जिनके पास भर्ती की लिखित परीक्षा में चालीस फीसदी अंक नहीं हैं। इसके साथ ही कई अभ्यर्थियों को 21 साल की उम्र पूरी नहीं होने के बावजूद चुन लिया गया है, जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए भर्ती विज्ञापन को इन दोनों शर्तों पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।

महाराष्ट्र के चुनाव की गहमा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ए.एन.आई. की खबर के अनुसार, शाह ने कहा था कि “महा विकास अयाड़ी गठबंधन औरंगजेब फैन क्लब है। यह औरंगजेब फैन क्लब भारत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है। उद्धव ठाकरे इस औरंगजेब फैन क्लब के मुखिया हैं। यह फैन क्लब महाराष्ट्र व भारत की सुरक्षा नहीं कर सकता है। यह तो सिर्फ भाजपा ही है जो सबकी सुरक्षा

व रक्षा कर सकती है।” शाह ने यह भी आरोप लगाया कि “उद्धव ठाकरे ने कसाब के साथ संलिप्त लोगों के साथ बैठकर खाना खाया था और वो पी.एफ.आई. का समर्थन करते हैं और ठाकरे, औरंगाबाद का नाम बदलकर “संभाजी नगर” रखने वालों के खिलाफ हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब

‘मृत कर्मचारियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जितेंद्र के पिता करौली जिले की स्कूल में प्रबोधक पद पर तैनात थे। इस दौरान नवंबर, 2014 में उनकी मौत हो गई। इस पर याचिकाकर्ता की मां ने अपनी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन काफी दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके लिए विभाग के उच्चाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा, लेकिन तय समय पर उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। वहीं, याचिकाकर्ता के वयस्क होने पर विभागीय अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की मां के आवेदन को निरस्त कर याचिकाकर्ता से आवेदन ले लिया। इसके बाद उसे नियुक्ति देने की कार्रवाई भी शुरू कर समस्त

औपचारिकताएं पूरी कर लीं, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी। वहीं, 5 फरवरी 2024 को उसका अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कर्मचारी की मौत के इतने सालों बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

इसी प्रकार दूसरे याचिकाकर्ता राहुल गुप्ता का आवेदन भी देरी के आधार पर खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के पिता वरिष्ठ लिपिक के पद पर करौली जिले में कार्यरत थे। उनका जून 2018 में असास्थिक निधन हो गया था। उनके स्थान पर याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन 24 नवंबर 2023 को इसका आवेदन भी देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

शाह ने शिव सेना (यू.बी.टी.) के अध्यक्ष पर सार्वजनिक रूप से हमला बोला है। उन्होंने ठाकरे पर लोकसभा चुनावों के दौरान भी सत्ता के लिए अपनी विचारधारा छोड़ने का आरोप लगाया था। उद्धव ठाकरे को जून 2022 उस समय मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिव सेना में बगावत हुई थी। इसके फलस्वरूप, उनकी सरकार गिर गई थी। फरवरी 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले घड़े को असली शिव सेना के रूप में मान्यता प्रदान की थी। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव इस वर्ष के आखिर में होने की संभावना है।

झारखंड सरकार महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये देगी

रांची, 03 अगस्त। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (जे.एम.एम.) सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 से 50 साल की महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपये देगी। इस योजना को मईया सम्मान योजना नाम दिया गया है। झारखंड में इसी साल के

प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में चार संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया

- इन उपक्रमों से 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा।
- इन संयुक्त उपक्रमों से प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं को गति मिलेगी।

जयपुर, 3 अगस्त (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में चार संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी दी गई। इन उपक्रमों से प्रदेश में 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसके अलावा जॉइंट वेंचर (जे.वी.) कंपनी से प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं का संचालन होगा। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में पदमान परिवर्तन, इसी के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पैशिएलिटी शिक्षकों की कमी दूर करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम (जे.वी.) कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं नवीकरणीय के लिए होगा। मेट्रो रेल नीति-2017 के अनुसार इस जे.वी. को भारत सरकार

उन्होंने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आर.वी.यू.एन.एल.) के बीच दो अलग अलग जॉइंट वेंचर की स्थापना की जाएगी। इसमें एक तापीय परियोजना एवं दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्गीकृत कर दें तथा यह कारण बता दें कि उन लोगों के पास तो नौकरी है। लेकिन यह एक अन्याय होगा क्योंकि स्वीपर का काम करने वाली जातियों के साथ बहुत अधिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेदभाव होता आ रहा है। संविधान-निर्माताओं ने, एस.सी./एस.टी. के सजातीय वर्गों के प्रति “ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक भेदभाव के आधार पर, उनको आरक्षण दिया था। इस विचार की दलील है कि आरक्षित कोटा के अन्दर उपश्रेणी बना देने से संविधान की भावना ही पीछे छोड़ जायेगी। चिराग पासवान ने कहा “एस.सी./एस.टी. कोटा में क्रीमी लेयर निर्धारित करने की अनुमति हरगिज नहीं दी जा सकती। एस.सी./एस.टी. कोटा के अन्दर उपश्रेणीय बनाने से उस सामाजिक रूप से उपेक्षित तबके के उत्थान का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा, जो छुआछूत का शिकार रहा है।

यह भी सम्भव है कि शीर्ष अदालत का यह निर्णय दलित राजनैतिक के नए ब्राह्म के उभरने का कारण बन जाये, क्योंकि दलित और आदिवासी वर्गों के विभिन्न श्रेणियों या उप-श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता तथा राजनैतिक दल उभर कर आ सकते हैं।

इसके साथ ही, राष्ट्रीय जातिगत जनगणना की मांग भी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद जोर पकड़ सकती है क्योंकि राज्य सरकारों ने उन जातियों की उप-श्रेणियों के सामाजिक-आर्थिक पैटर्न से सम्बन्धित आँकड़ों की जरूरत पड़ेगी।

हिमाचल में 47 लापता लोगों का अब तक सुराग नहीं मिला

शिमला, 03 अगस्त। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की तीन घटनाओं में लापता हुए 47 लोगों का अभी भी पता नहीं चला है, इन सभी की तलाश का जा रही है। बुधवार रात को मंडी, शिमला व कुल्लू में बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही हुई है। शिमला के समेज में 33 लोग लापता हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कुल्लू में नौ और मंडी में पांच लोग लापता हैं। अभी तक छः लोगों के शव बरामद किए गए हैं। जिनमें पांच मंडी के और एक कुल्लू का है। फिलहाल सेना, एन.डी.आर.एफ. और स्थानीय प्रशासन के 400 लोग तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं।

से मेट्रो परियोजना लागत में वित्तीय सहयोग (अंशपूर्वी एवं ऋण के रूप में) प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, राज्य की मेट्रो परियोजनाओं के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गत 10 मार्च को राज्य सरकार और विभिन्न केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर यूनिट (पी.एस.यू.) के बीच हुए एम.ओ.यू. की अनुपालना में मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार की विभिन्न पी.एस.यू. के साथ जॉइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की कंपनियों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और केन्द्रीय पी.एस.यू. कंपनियों की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत रहेगी।

उन्होंने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आर.वी.यू.एन.एल.) के बीच दो अलग अलग जॉइंट वेंचर की स्थापना की जाएगी। इसमें एक तापीय परियोजना एवं दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी।

पश्चिमी देशों में भारतीय मूल के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नीतियों, खासकर आतंक समन्वय को रोकने में इन्टरनेट सेवाओं को निलम्बित करने को लेकर की गई उनकी आलोचना ने भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाया।

भारतीय मूल की होने और भारत के साथ पारिवारिक रिश्ते होने के बावजूद जयपाल ने अमेरिकी कांग्रेस में भारत के खिलाफ एक भ्रामक प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रकट रूप से अमेरिका की सरकार को प्रभावित करना था, लेकिन विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस मामले में एक सटीक फटकार लगाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ऐसी राजनीतिक शोशेबाजी के बावजूद भारत के पास अपने हितों को रक्षा करने की सामर्थ्य है।

निक्की हैली, प्रीत भरारा, बाँबी जिन्दल और सुपुला ब्रेक्मैन जैसे भारतीय मूल के अन्य राजनेता ऐसी ही मनोवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं। अग्रणी रिपब्लिकन एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ में अमेरिका की पूर्व राजदूत रच चुकीं हेली ने प्रायः ऐसा स्टैण्ड लिया, जो उनकी पार्टी की नीतियों से तो मेल खाता था किन्तु भारतीय हितों के विपरीत था। इस बात का एक उदाहरण यह है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हुई ‘दो’ में उन्होंने भारत और चीन को “चौ प्रदूषक” देश बताया था। यह भाषण अमेरिका में तो राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभदायक है किन्तु भारत की विकाससात्मक चुनौतियों और ऊर्जा के सतत प्रयासों को अनदेखी करता है। अमेरिका के दक्षिणी जिले में

रूपये का निवेश होगा। उन्होंने बताया कि विद्युत प्रसारण परियोजनाओं की स्थापना के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी की स्थापना की जाएगी। इससे राजस्थान में बढ़ती विद्युत लोड की मांग की पूर्ति के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का विकास हो सकेगा। यह जे.वी. (निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं रखरखाव) आधार पर ट्रांसमिशन सिस्टम का संचालन करेगी और अपने द्वारा बनाई गई संपूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता राजस्थान डिस्कॉम को उपलब्ध करवाएगी। इस जे.वी. के माध्यम से प्रदेश में 10 हजार करोड़ का निवेश होगा।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के लेखाबुज में प्रसारण निगम में केन्द्र सरकार के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनिवित) लाने की घोषणा की गई है। इसकी अनुपालना में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इनिवित का गठन करेगा तथा इसे सेबी में पंजीकृत किया जाएगा। आर.वी.पी.एन. को इनिवित के माध्यम से अपनी परिचालन ट्रांसमिशन परिसंपत्ति के मुद्र्रीकरण के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव आज अनुमोदित किया गया है।

लाभों में नहीं होती। उदाहरण के लिए यू.के. के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक के कार्यकाल में, उनके भारतीय मूल और हिन्दू पहचान के बावजूद भारत-यू.के. व्यापार समझौते में थोड़ी-बहुत प्रगति हुई।

लाभों में नहीं होती। उदाहरण के लिए यू.के. के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक के कार्यकाल में, उनके भारतीय मूल और हिन्दू पहचान के बावजूद भारत-यू.के. व्यापार समझौते में थोड़ी-बहुत प्रगति हुई।

लाभों में नहीं होती। उदाहरण के लिए यू.के. के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक के कार्यकाल में, उनके भारतीय मूल और हिन्दू पहचान के बावजूद भारत-यू.के. व्यापार समझौते में थोड़ी-बहुत प्रगति हुई।

2023 में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के आरम्भ में एक अग्रणी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन एडवायज़री फर्म ने खुलासा किया था कि गत तीन वर्षों में 17,000 से ज्यादा करोड़पतियों, जिनमें प्रत्येक की नेटवर्थ एक मिलियन डॉलर से अधिक थी, ने भारत छोड़ दिया है। उच्च नेटवर्थ और कुशल भारतीयों के भारत छोड़ने का कारण अपारदर्शी कर नीतियों और मनमाने का प्रशासन का परिणाम हो सकता है, इसके अलावा गत एक दशक से भारत में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि ये लोग सिंगापुर, यू.ए.ई., यू.के. और अन्य जगहों को पसंद कर रहे हैं। यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति जो हमारे राजस्व के आधार को भारी नुकसान पहुंचाएगा।

कांग्रेस ने भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम मतदान आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग को इतना अधिक समय क्यों लगा, जबकि तकनीकी आधुनिक तकनीकी प्रक्रिया हर दो घंटे में आंकड़े अपडेट होते हैं। उन्होंने कहा, पहले चरण के मतदान के लिए फाइनल आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग को चार दिन लग गए, दूसरे चरण के लिए उसने 6 दिन लिए तथा बाद के चरणों के लिए 4 से 5 दिन।

दीक्षित ने कहा, इससे ना केवल भारतीय चुनाव आयोग, की विश्वसनीयता परा सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि समस्त चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदे पैदा हो गया है। दीक्षित चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण से सतमत नहीं थे कि मतदान के फाइनल आंकड़े देर से जारी करने के पीछे मुख्य कारण थे। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी की उपलब्धता के कारण प्रारंभिक तथा अंतिम आंकड़ों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सन् 2019 में, प्रारंभिक तथा अंतिम मतदान आंकड़ों में करीब एक प्रतिशत का अंतर था और पांच सालों के बाद औसत अंतर बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गया है। दीक्षित ने कहा, अपर चुनाव आयोग संतोषजनक जवाब नहीं दे सका तो कांग्रेस इस मामले में जाँच के लिए उच्चस्तर पर संर्षक करेगी।

वित्तीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद ट्रम्प ने दावा किया कि आज के विपरीत उन्होंने अमेरिकन बंदियों को जल्दी छुड़वाया था और रूस को कोई छूट नहीं दी गई थी। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि तब भी रूस के बंदियों की रिहाई का सौदा हुआ था। अमेरिकन मध्यस्थों ने एक फाइनेंशियल अखबार “वॉलस्ट्रीट जर्नल” के पत्रकार की रिहाई सुनिश्चित करवाई थी। वर्तमान सौदे में अमेरिकन नेवी के कर्मियों की रिहाई करवाने की बात भी चल रही है।